



किरिस्तान रिपब्लिक के वित्त मंत्री से मुलाकात करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर।

मणिपुर में हिंसा थमी... कर्पूरी जारी

टीम एक्शन इंडिया/इंफाल मणिपुर में मैतेई आरक्षण विवाद को लेकर भड़की हिंसा के बाद शुक्रवार को यहां हालात नियंत्रण में हैं। राज्य के 16 में से 8 जिलों में कर्पूरी जारी है। सेना के 55 कॉलम और असम राइफलस की टुकड़ी तैनात कर दी गई है। हिंसा में अब तक कुछ लोगों के मारे जाने की सूचना है। हालांकि, इसे लेकर अब तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। सी से ज्यादा लोग घायल हैं। मोबाइल इंटरनेट बेमियादी रूप से बंद कर दिया गया है। अपरिहार्य हालात में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। साथ ही मणिपुर जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया है। उधर, अब तक राज्य में 11 हजार लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया। मणिपुर के बाद मेघालय में भी झड़प, 16 गिरफ्तार : मेघालय की राजधानी शिलांग में भी कुकी और मैतेई समुदाय के कोलज स्टूडेंट्स में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों समुदाय के बीच मारपीट भी हुई। पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है।



मुरैना में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या

टीम एक्शन इंडिया/मुरैना मुरैना के लेपा भिड़ोसा गांव में शुक्रवार सुबह एक परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि गांव के 2 परिवारों के बीच पिछले 10 साल से रंजिश चल रही है। इसके चलते ही शुक्रवार को एक परिवार ने दूसरे परिवार पर फायरिंग कर दी। 3 पुरुष और 3 महिलाएं मारी गई हैं, सभी एक ही परिवार के हैं। 3 लोग घायल हैं। इसी गांव के रविंद्र सिंह कांग्रेस विधायक हैं। मुरैना में हुए हत्याकांड का वीडियो सामने आया है। इसमें हमलावर लोगों को लाठियों से पीट रहे हैं। कुछ लोग बंदूक और लाठियां लेकर सड़क पर खड़े हैं। इसी बीच एक युवक आता है और एक के बाद एक 9 लोगों को गोली मार देता है। गोली लगने के बाद सभी लोग जमीन पर पड़े दिख रहे हैं। घटनास्थल पर बच्चे भी थे, जिन्हें एक महिला ने आवाज लगाकर घरों के अंदर बुला लिया। इस महिला की आवाज भी वीडियो में आ रही है। फायरिंग में लेस कुमारी पत्नी वीरेंद्र सिंह, बबली पत्नी नरेंद्र सिंह तोमर, मधु कुमारी पत्नी सुनील तोमर, गर्जेन्द्र सिंह पुत्र बदलू सिंह, सत्यप्रकाश पुत्र गर्जेन्द्र सिंह व संजु पुत्र गर्जेन्द्र सिंह हैं।



राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

एक्शन इंडिया

वर्ष: 12 अंक: 123 पृष्ठ: 12

RNI : HPHIN/2012/48072



actionindiauna@gmail.com

हिमाचल संस्करण

दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - उत्तराखण्ड



आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा: मोदी

बम-बारूद के बगैर ये समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश

टीम एक्शन इंडिया/कर्नाटक

कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस वक्त की देश की सबसे चर्चित फिल्म केरल स्टोरी पर बात की। पीएम ने कहा कि केरल देश का इतना खूबसूरत राज्य है। ऐसे में वहां चोरी-छिपे किस तरह की आतंकी साजिश रची जा रही थी। उसे पूरी दुनिया देख रही है। यही नहीं पीएम ने कांग्रेस का आतंकवादियों के लिए क्या रुख रहता है। इस पर बात करते हुए कहा कि जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। नरेंद्र मोदी ने बेल्लारी में हुई रैली में भाषण की शुरुआत जय बजरंग बली के जयकारे के साथ की। इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने से भी आपत्ति है। बेल्लारी में पीएम मोदी ने करीब 47 मिनट का भाषण दिया।



'सूझान से कर्नाटक के माई-बहनों को सुरक्षित लाए'

सूझान में मौजूद गृह युद्ध को देखते हुए कर्नाटक के कई लोगों को भारत सुरक्षित वापस लाया गया है। इस पर पीएम ने कहा कि सूझान की स्थिति देखकर बड़े-बड़े देशों ने भी अपने नागरिकों को वहां से निकालने से मना कर दिया था लेकिन भारत सरकार अपनी कोशिशों में लगी हुई थी। हमने ऑपरेशन कावेरी चलाया और ऐसी-ऐसी जगहों से हमारे लोगों को वापस लाए जहां विमान तक उतरना मुश्किल हो रहा था और ऐसे मुश्किल समय में कांग्रेस ने देश का साथ नहीं दिया।

पिछले करीब एक हफ्ते में मोदी का यह तीसरा कर्नाटक दौरा है। आतंकवाद पर प्रहार: पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन पर आतंकवाद के खतरे पर खुलकर बात की। उन्होंने

लिए कहा, कि इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रमुख आवश्यकता है। कर्नाटक का आतंकवाद से मुक्त रहना भी उतना ही जरूरी है। भाजपा हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रही है। फिर से बजरंग बली की जय-जयकार: कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पीएम ने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में ढेर सारे झूठे वादे हैं, ये तालाबंदी और तुष्टिकरण का बंडल है। बता दें कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया था। जिसमें उन्होंने पीएफआई जैसे आतंकी संगठन को बैन करने का वादा किया है। मगर साथ में उन्होंने बजरंग दल पर भी प्रतिबंध की बात कह दी थी जिसको लेकर भाजपा ने काफी विरोध जताया। अब पीएम हर रैली में जय बजरंग बली के जयकारे लगवा रहे हैं।



हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्मदिवस कई मायनों में खास रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनंतकाल से संत महापुरुषों ने सदैव सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जन जन को जागरूक करने का काम किया है।

शरद पवार ही एनसीपी के अध्यक्ष रहेंगे

टीम एक्शन इंडिया/मुंबई एनसीपी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए 16 सदस्यीय कोर कमेटी की शुक्रवार को मुंबई में मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने पवार का इस्तीफा खारिज करने के लिए प्रस्ताव पेश कर उनसे फेसला वापस लेने का अनुरोध किया। कमेटी के बाकी सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया और पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। शरद पवार भी कह चुके हैं कि नया अध्यक्ष चुनने के लिए 16 सदस्यीय कमेटी जो फेसला लेगी, उन्हें वह मंजूर होगा।

राजौरी एनकाउंटर में पांच जवान शहीद



टीम एक्शन इंडिया/श्रीनगर जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार सुबह से चल रही मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। सुबह तक दो जवानों की शहादत की खबर थी। घायल हुए तीन और जवानों की भी मौत हो गई है। इस तरह यह आंकड़ा 5 हो गया। एक अन्य जवान घायल है। एनकाउंटर करीब 9 घंटे से चल रहा है। यह सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ। सूत्रों ने बताया कि सेना ने 2-3 आतंकवादियों को इस इलाके में घेर रखा है। ये वही आतंकी हैं, जो पुंछ में सेना के ट्रक पर हुए अटैक में शामिल थे। राजौरी में दोनों ओर से

फायरिंग जारी है। इसी दौरान आतंकवादियों ने ब्लास्ट किया, जिसमें आर्मी जवान शहीद हो गए। जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह भी राजौरी पहुंचे गए हैं जहां एनकाउंटर चल रहा है। राजौरी में एनकाउंटर गोवा के पणजी में चल रही एससीओ मीटिंग से पहले शुरू हुआ। इस मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी शामिल हुए। भारत के विदेश मंत्री से उनको मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात के कुछ ही मिनटों के बाद जयशंकर ने भुट्टो के सामने कहा- आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

क्या घाटी में पहुंच रही तालिबान के कब्जे वाली यूएस एम16, एम4 राइफलें?

टीम एक्शन इंडिया/जम्मू कश्मीर

2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद 'नाटो' सेनाओं के अनेक हथियार और गोला-बारूद वहीं पर छूट गए थे। तालिबान के कब्जे में आए वे घातक हथियार, अब पाकिस्तान के रास्ते जम्मू-कश्मीर तक पहुंच रहे हैं। इस आशंका ने भारत की सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। गत दिनों पुंछ में हुए हमले की जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि तालिबान के पास मौजूद



अमेरिकन M16 राइफल व M4 कारबाइन जैसे हथियार, जम्मू-कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकी संगठन 'लश्कर-ए-तैयब' और 'जैश-ए-मोहम्मद' के हाथ लगे हैं। हालांकि अभी इनकी संख्या तय नहीं है। इनके अलावा अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुई 'स्टील बुलेट' पहले से ही घाटी में मौजूद हैं। अफगानिस्तान से नाटो सैनिकों के वापस लौटने के बाद '85 बिलियन डॉलर' के एयरक्रॉफ्ट, बख्तरबंद गाड़ियां, रॉकेट डिफेंस सिस्टम, मशीन गन और अर्सलेंट राइफल सहित भारी मात्रा में गोला बारूद पर तालिबान का कब्जा हो गया था।

क्या घाटी में पहुंच रही तालिबान के कब्जे वाली यूएस एम16, एम4 राइफलें?

प्रेरणा स्रोत :



सुषमा चोपड़ा संतोष रानी छाबड़ा सज्जनपाल मर्ग

॥ जय श्री बालाजी महाराज ॥



॥ जय श्री बालाजी महाराज ॥

परम श्रद्धेय राकेश भारद्वाज संस्थापक (जादरंग रातोई)

वार्षिकोत्सव समारोह 2023

आदर्श रसोई

राकेश भारद्वाज चौक



सोमवार, 8 मई 2023 समय : सायं 6 बजे

कार्यक्रम स्थल : ग्रीन लॉज बैक्वट (प्रथम तल) वजीरपुर, दिल्ली-52

निवेदक :

मोहन कुमार गर्ग
चेयरमैन (9354212413)

रामलाल उनियाल
वार्ड्स चेयरमैन (9212273454)

सुरेंद्र चोपड़ा
प्रधान (9910766000)

रवि भारद्वाज
संयोजक (9999889104)

विनोद गर्ग
महासचिव

राकेश जुनेजा
महासचिव

पम्मी मल्होत्रा
महासचिव

संजय वर्मा
कोषाध्यक्ष

एवं समस्त आदर्श रसोई टीम

राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए जून माह में शुरू होगी निविदा प्रक्रिया:मुख्यमंत्री

टीम एक्शन इंडिया/शिमला/चमन शर्मा
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग को 10 राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया जून, 2023 में आरम्भ करने के निर्देश दिए हैं ताकि इन स्कूलों का निर्माण कार्य शीघ्र-अतिशीघ्र शुरू किया जा सके। उन्होंने बुधवार सायं शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें से नौदैन, बड़सर, पालमपुर, जयसिंहपुर, शाहपुर, ज्वाली, जसवां परागपुर, जुबल-कोटखाई, किन्नौर और हरोली विधानसभा क्षेत्रों में इसके लिए भूमि शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में



यह विद्यालय आदर्श स्कूल के रूप में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन विद्यालय भवनों के लिए स्थल अनुरूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहले चरण में नर्सरी-पूर्व से पांचवीं कक्षा तक के लिए ब्लॉक निर्मित किए जाएंगे और यह कार्य 18 माह में

पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे बच्चों का और बेहतर ढंग से व्यक्तिगत विकास हो सकेगा और उनमें आत्मसम्मान की भावना का संरक्षण होगा और वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हो सकेंगे। उन्होंने

कहा कि इन स्कूलों में शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कार्य कर रही है और राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल इस दिशा में एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से यह डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक ढांचा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन स्कूलों में शिक्षक गतिविधियों के लिए भी प्रबन्ध किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन स्कूलों की स्थापना के लिए बजट में समुचित प्रावधान किया गया है। ठाकुर सुखविंदर

सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को इन स्कूलों के लिए एक संकल्पना पत्र (कंसेप्ट पेपर) तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसकी समीक्षा के लिए शीघ्र ही एक अन्य बैठक भी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का वायदा किया था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी खोले जाएंगे और उन्होंने शिक्षा विभाग को इसके लिए आवश्यक तैयारियां शुरू करने के लिए कहा। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य सचिव सचिव आशीष बुटल, मुख्य सचिव प्रबोध सम्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, शिक्षा सचिव डॉ. अभिषेक जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मनाली में बड़े सेक्स रैकेट पर पुलिस का शिकंजा, दो गिरफ्तार

टीम एक्शन इंडिया/मनाली/राज अग्रवाल
मनाली पुलिस ने उपाधीक्षक केडी शर्मा के नेतृत्व में एक निजी होटल में चल रहे अनेतिक देह व्यापार के बड़े रैकेट को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा सुनिश्चित तरीके के नकली ग्राहकों को उक्त होटल में भेजा गया और मामला सट हो जाने पर थाना प्रभारी मनाली द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ होटल पर दबिश दी गई। जिससे वहां पर चल रहे अवैध देह व्यापार के धंधे का पदाफाश हुआ। पुलिस ने इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहे दो लोगों को हिरासत में लिया है। होटल की संचालिका व होटल प्रबंधक के खिलाफ मनाली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि मनाली में अवैध देह व्यापार का धंधा जोरों से चल रहा है। उस पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी मनाली द्वारा सुनिश्चित तरीके से एक निजी होटल पर दबिश कर देह व्यापार करने वालों पर कार्रवाई करते हुए तीन लड़कियों को उक्त गिरोह से सुरक्षित छुड़वाया जिनसे जबरन देह व्यापार करवाया जा रहा था। केडी शर्मा ने बताया कि इस संदर्भ में मनाली पुलिस द्वारा धारा 3,4,5,6 के तहत अनेतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम व आईपीसी की धारा 370 के तहत मुकदमा दर्ज करके छानबीन की जा रही है। गौरतलब है कि देह व्यापार को लेकर पर्यटन नगरी मनाली काफी समय से सोशल मीडिया पर भी ट्रोल हो रहा था। मनाली के समस्त संगठन भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे।

नाहन में झूले अब रहेंगे और दो दिन

टीम एक्शन इंडिया/नाहन/एसपी जैरथ
जिला मुख्यालय नाहन के चौगान मैदान में चल रहे जोड़ मेला के समय में जिला प्रशासन के द्वारा 2 दिन की बढ़ोतरी की गई है। प्रशासन के द्वारा समय में बढ़ोतरी लोगों और बच्चों की मांग को देखते हुए की गई है गौरतलब हो कि चौगान मैदान में चल रहा है मेला 5 मई को समाप्त हो जाना था। प्रशासन के द्वारा दी गई मंजूरी के बाद अब यह मेला शनिवार को समाप्त हो जाएगा। प्रशासन के द्वारा लिए गए इस फैसले का शहर की जनता के द्वारा स्वागत किया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रूपेंद्र ठाकुर जिला कांग्रेस महासचिव नरेंद्र तोमर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष उपमा धीमान आदि ने कहा कि शहर में मनोरंजन को लेकर बच्चों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा



कि नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने पूर्ण विश्वास दिलाया है कि जल्द ही आयोजित होने वाले जोड़ मेला को जिला स्तरीय मेला घोषित करवाया जाएगा। वहीं मेला ऑर्गेनाइजर पवन वर्मा और सत्यनारायण ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बढ़ाए गए समय के अनुसार वह 2 दिन और अपनी सेवाएं देगे जिसमें लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने प्रशासन के द्वारा बढ़ाए गए समय को लेकर आभार भी व्यक्त किया है। उधर नाहन नगर प्रशासन के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर के द्वारा खबर की पुष्टि की गई है। उन्होंने कहा कि लोगों की और बच्चों की मांग को देखते हुए 2 दिन का अतिरिक्त समय बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि समय और बढ़ाया जाता मगर चौगान मैदान की बुकिंग किसी और के द्वारा की गई है लिहाजा 2 दिन से अधिक समय नहीं दिया जा सकता।

प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) के गठन पर सीएम का विधायक ने जताया अभार

टीम एक्शन इंडिया/केलांग/अंगारिया
हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) का गठन करने में गठन कर लिया है। परिषद के अध्यक्ष जहां माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर को बनाया गया है वहीं जनजातीय विकास मंत्री जगत नेगी को उपाध्यक्ष, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर को सदस्य के रूप में विशेष तौर पर शामिल किया गया है। इसके अलावा परिषद के सदस्यों में स्पीति के काजा से केसंग रापचिक, मुद पिन वैली से छेवांग, वीर भगत व सोमन तर्गो को लिया गया है, जबकि लाहल से एडवोकेट सुशील व मोहनलाल

को टीएसी बनाया गया है। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) के गठन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। विधायक रवि ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) के गठन से जहां जनजातीय जिला में विकास की रफ्तार को गति मिलेगी, वहीं प्रदेश सरकार की विकास आत्मक योजना को जनता तक पहुंचाने में भी असानी होगी। विधायक रवि ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई एवं शुभकामना दी है।

बुद्ध पुर्णिमा पर गोंपा में रंगारंग कार्यक्रम

टीम एक्शन इंडिया/केलांग/अंगारिया
महात्मा बुद्ध की 2567वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। बुद्ध पुर्णिमा के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम बौद्ध विधायक ने आयोजित किया गया। कार्यक्रम भारत-तिब्बत मैत्री संघ व शिमला तथा किन्नौर, लाहल-स्पीति बौद्ध सेवा संघ द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर बौद्ध भिक्षुओं ने विशेष पूजा-अर्चना की व भगवान बुद्ध के उपदेशों का स्मरण किया। बुद्ध पुर्णिमा के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने बताया कि आज के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान व निर्वाण



प्राप्त हुआ था। तिब्बत से तिब्बतीयन होकर आये तब से निर्वासित हैं और भारत में अलग थलग हैं। इनको भी भारत में सम्मान मिलना चाहिए। यदि नेपाल व बांग्ला से आय लोगों को यहाँ शरण मिल सकती है। तो तिब्बतियों को क्यों नहीं? तिब्बतीयन शांति से रहते हैं और भारत के लिए इनका अहम योगदान रहा है। उन्होंने इस दौरान गोंपा प्रबंधन को दो लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इसमें तिब्बती संस्कृति का झलक देखने को मिला। कार्यक्रम में मुखौटा नृत्य, परंपरागत हिमालयी तिब्बती नृत्य, किन्नौरी, सहित आदि मौजूद रहे।

हाब्सन की बेटी कविता बनी केमिस्ट्री विषय की सहायक प्रोफेसर



टीम एक्शन इंडिया/नाहन/एसपी जैरथ
ग्रामीण परिवेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इतिहास गवाह है कि आजतक जितनी भी विभूतियां उच्च पदों पर पहुंची है वह सभी ग्रामीण परिवेश के हिन्दी मिडियम सरकारी स्कूलों की देन है। ऐसी ही एक ग्रामीण परिवेश की होनहार बेटी कविता चैहान ने कॉलेज कैडर के सहायक प्रोफेसर रसायन विज्ञान की परीक्षा उत्तीर्ण कर समूचे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बता दें कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज कैडर की विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसर का परिणाम घोषित किया है जिनमें केमिस्ट्री विषय में राजगढ़ क्षेत्र से कविता चैहान का भी चयन हुआ है। कविता चैहान का जन्म वर्ष 1997 को राजगढ़ के हाब्सन के समीप तीर गनोह नामक गांव में हुआ। इनके पिता जबर सिंह और माता पुष्पा एक साधारण परिवार से संबद्ध रहते

हैं। खेतीबाड़ी ही आय का एक मात्र साधन है। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने पैतृक गांव तीर गनोह में करने के उपरांत आठवीं कक्षा मिडल स्कूल उलख कतोगा से उत्तीर्ण की। मेट्रिक तक शिक्षा सनौरा स्कूल में करने के उपरांत कविता चैहान ने वर्ष 2014 में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजगढ़ से जमा दो की परीक्षा पास की। तदोपरान्त डिग्री कॉलेज सोलन से वर्ष 2017 में बीएससी और हिमाचल विश्वविद्यालय से वर्ष 2019 में एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। कविता चैहान अब एचपीयू से रसायन विज्ञान में पीएचडी कर रही हैं। पिता जबर सिंह के अनुसार बचपन से ही बहुत होनहार बेटी थी। दिनरात पढ़ाई में व्यस्त रहती थी इसका बचपन से ही शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद पाना एक मात्र उद्देश्य था। इन्होंने बताया कि बेटी का यचन सहायक प्रोफेसर के पद पर होने से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग रहा है। एक साक्षात्कार में कविता चैहान ने बताया कि वह अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के अलावा राजगढ़ स्कूल के अध्यापक सुशील राणा और सुमन राणा को दिया है जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से वह यह मुकाम हासिल कर पाई हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी सेवा के साथ-साथ वह पीएचडी शिक्षा भी पूर्ण करेगी।

रिवालसर में बुद्ध जयंती की धूम, वाद्य यंत्रों के साथ निकाली भगवान बुद्ध की शोभायात्रा

टीम एक्शन इंडिया/मंडी/खेमचंद्र शास्त्री
तीन धर्मों के लोगों की पवित्र धर्म स्थली रिवालसर में भगवान गौतम बुद्ध की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर प्राचीन निगमामा बौद्ध मंदिर रिवालसर में हजारों बौद्ध अनुयायियों व लामाओं ने एकत्रित होकर भगवान बुद्ध की विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया। इस दौरान मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा को मंदिर के प्रांगण में निकाला गया। जहां उसका सूरंगार किया गया। जिसके बाद बुद्ध की प्रतिमा को पालकी में बिठाकर लामाओं द्वारा वाद्य यंत्रों की धुनों तथा प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रन्थों के साथ रिवालसर झील परिक्रमा मार्ग पर महात्मा बुद्ध की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। जिसमें बड़ी



संख्या में बौद्ध अनुयायी शामिल हुये। इसके बाद बौद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध को प्रिय खीर के भंडारे का आयोजन किया जिसे श्रद्धालुओं ने प्रसाद के रूप

ग्रहण किया। यह दिन बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए बहुत खास व पवित्र दिन माना गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन राजा शुद्धोधन के घर लुंबिनी नेपाल में हुआ था। वैशाख माह पूर्णिमा के दिन ही बौद्ध गया में एक वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं से उन्होंने धर्मचक्र-प्रवर्तन प्रारम्भ किया था। भगवान बुद्ध की भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है। उधर जोगिन्दरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत भराडू में स्थित बिट्ट राम सुख सरस्वती विद्या मंदिर भराडू में श्रद्धांजलि के बुद्धपूर्णिमा के उपलक्ष्य में विद्यार्थ बस्कर गायत्री यज्ञ संपन्न हुआ जिसमें

विद्यालय प्रबंध समिति के पूर्व सचिव विनोद शर्मा व गायत्री परिवार भराडू ने यज्ञ संचालन किया। इस अवसर पर अभिभावकों व बच्चों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन लाल ने बुद्धपूर्णिमा व विद्यार्थ संस्कार के महत्त्व पर प्रकाश डाला। इस उपलक्ष्य में विद्यालय प्रबंध समिति के पूर्व सचिव विनोद शर्मा के कर-कमलों द्वारा 16 मेधावी छात्र-छात्राओं को सटीक बिट्ट छात्रवृत्ति, स्वर्गीय दैलत राम व स्वर्गीय रेणु ठाकुर छात्रवृत्ति पुरस्कार वितरित किये गए। विनोद शर्मा ने विद्यालय में इस प्रकार के संस्कार पक्ष वातावरण को बनाए रखने के लिए विद्यालय परिवार को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

मंडी पंडोह का सफर फिर बना जानलेवा, फिर हुआ लेंसलाइड

टीम एक्शन इंडिया/मंडी/खेमचंद्र शास्त्री
चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाइवे पर मंडी से पंडोह तक का सफर अब जानलेवा हो चुका है। दो दिन पहले भी लेंडस्लाइड के चलते मार्ग बंद हो गया था और गत रात लगभग एक बजे चार मील के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में फिर र से मलवा सड़क पर आ गिरा जिससे यह एनएच वाहनों की आवाजाही के लिए पूर्ण रूप से बंद हो गया है। एनएच मंडी सागर चंद्र ने बताया कि अब तक का ये सबसे बड़ा लेंडस्लाइड है। उन्होंने कहा कि मलवा इतना ज्यादा है की लगभग



शाम 5 बजे तक ही रास्ता बहाल हो सकता है। इस रास्ते पर फरेलिन निर्माण का कार्य चला हुआ है। पहाड़ों की कटिंग की जा रही है और पहाड़ियों की स्थिति ऐसी है की जिससे आए दिन कभी भी इस रास्ते पर लेंडस्लाइड हो रहा है। स्थानीय लोगों व पर्यटकों को अपनी जान हथेली पर रख कर इस रास्ते को पार करना पड़ता है। स्थित अब ऐसी हो चुकी है की कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नेशनल हाइवे पर जब भी रास्ता

बंद होता है तो के एम सी कंपनी के पास कोई भी बड़ी मशीनरी या लोडर नहीं है जिससे जल्दी रास्ता खोला जा सके। रास्ता खोलने के लिए कार्य में लगे ठेकेदारों की ही अपनी मशीनरी लगा कर रास्ता बहाल करना पड़ता है। मौके पर अभी रास्ता बहाल करने के लिए ठेकेदारों द्वारा मशीनरी लगा दी गई है पुलिस विभाग द्वारा कहा गया है की आने जाने वाले सभी पर्यटक पंडोह गोहर मार्ग व मंडी कटोला बजौरा मार्ग का प्रयोग करें। इन वैकल्पिक रास्तों पर भी गाड़ियों का भारी जाम रहा है जिससे पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

लाहल स्पीति की बेटी भुवनेश्वरी ठाकुर ने जीता सोना



पिता विधायक रवि ठाकुर ने दी बधाई
टीम एक्शन इंडिया/केलांग/अंगारिया
लाहल स्पीति जिला से संबंध रखने वाली एवं स्थानीय विधायक रवि ठाकुर की बेटी भुवनेश्वरी ठाकुर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर न केवल हमारा बल्कि अपने जिला का नाम भी अनेक गुरुजनों सहित रोशन किया है। भुवनेश्वरी ठाकुर की इस कामयाबी पर आप सभी को एक बार फिर हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। भुवनेश्वरी ठाकुर ने अपने पिता विधायक रवि ठाकुर के पिता विधायक रवि ठाकुर ने भी अपनी बेटी की इस कामयाबी को सोशल मीडिया के माध्यम से लाहौल स्पीति की जनता के साथ साझा किया है।

महिला सम्मान में डाक विभाग ने जारी की बचत पत्र योजना

टीम एक्शन इंडिया/नाहन/एसपी जैरथ
डाक विभाग द्वारा महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की है। दरअसल केंद्र सरकार ने अपने वार्षिक बजट के दौरान महिला सशक्तिकरण को लेकर बचत योजना शुरू करने का जिक्र किया था। जिसको मद्देनजर रखते हुए डाक विभाग ने इस योजना को 2 वर्षों के लिए जारी किया है। ये योजना 31 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2025 तक जारी रहेगी। योजना की खास बात यह है कि इसमें कोई भी महिला 2 वर्षों के लिए किसी भी आयु वर्ग की निवेश कर



सकती है। इस योजना में डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं के मुकाबले अधिक 7.5 प्रतिशत ब्याज दी जा रही है। इस योजना में महिला

8 आवेदन के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और फोन नंबर होना जरूरी है

न्यूनतम रू 1000 और रू100 के गुणक में खाता खोल सकती है। योजना के तहत अधिकतम राशि की भी सीमा तय की गई जोकि रू200000 है। इसमें महिला एक समय में केवल एक ही खाता खोल सकती है। परंतु तीन 3 महीने के अंतराल के बाद एक महिला कई खाते खोल सकती है। योजना में ब्याज तिमाही आधार पर समायोजित करके खाते में जमा की जाएगी इस

योजना में खास बात ये भी है कि योजना में 1 वर्ष के बाद जमा राशि का अधिकतम 40 प्रतिशत तक निकासी का भी प्रावधान है। साथ ही खाता खोलने की तिथि से 6 महीने के बाद खाता बंद भी किया जा सकता है। ऐसा करने पर योजना में देय ब्याज दर से 2 प्रतिशत कम यानी 5.5 प्रतिशत ब्याज दर के साथ राशि मिलेगी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना में आवेदन के लिए सभी महिलाएं पात्र हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और फोन नंबर होना जरूरी है। डाकपाल नाहन सुभाष भारद्वाज ने कहा

कि नारी शक्ति को सशक्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना का महिलाओं को लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा डाक विभाग ने अन्य योजनाओं पर भी ब्याज दरें संशोधित की है। बचत खाते में 4 प्रतिशत आरडी में 6.2 प्रतिशत, मासिक आय योजना में 7.4 प्रतिशत, टर्म डिपॉजिट पर 6.8 से 7.5 प्रतिशत, सुकन्या समृद्धि योजना में 8 प्रतिशत पीपीएफ में 7.1 प्रतिशत, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.2 प्रतिशत एनएससी में 7.7 प्रतिशत तथा किसान विकास पत्र में 7.5 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

कांग्रेस ने ईवीएम बदली : चेतन

टीम एक्शन इंडिया/शिमला/चमन शर्मा
भाजपा नेता चेतन ब्रागटा ने कहा कि कांग्रेस चुनावों में धांधली के लिए जानी जाती है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है बालूगंज नगर निगम चुनाव की कार्टोटिंग में सामने आया जब ईवीएम मशीन को बदल दिया गया, जब बालूगंज में ईवीएम मशीन की कार्टोटिंग हो रही थी तो सभी मशीनों में से एक मशीन को सोरियल नंबर उस सोरियल नंबर से मैच नहीं किया जब 2 मई को मतदान के बाद मशीन को सील कर दिया गया था। इसके लेकर भाजपा ने आपत्ति भी दर्ज करी पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार का दबाव बनाते हुए चुनाव परिणाम घोषित करवा दिया।

बैहना जट्टा में हर्षोल्लास से मनाया बुद्ध पूर्णिमा

भारत रत्न बाबा बाबा साहेब डा. भीम राव अंबेडकर को भी किया याद

टीम एक्शन इंडिया/बिलासपुर/कश्मीर ठाकुर

गोविंद सागर झील के उस पार स्थित बैहना जट्टा में शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हिप्र अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने बड़चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर महात्मा बुद्ध तथा भारत रत्न बाबा साहेब डाण भीम राव अंबेडकर को याद किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संयुक्त संघर्ष मोर्चा के महामंत्री आचार्य नंद लाल ने बताया कि आज ही के दिन गौतम बुद्ध को बोध गया में बोधी वृक्ष के नीचे सत्य का बोध यानि ज्ञान हुआ था। उन्होंने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा पारंपरिक रूप से वैशाख महौने की पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ गौतम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा पर, जिसे बुद्ध जयंती के रूप में भी जाना जाता है, लोग सांसारिक सुखों



को त्यागने और पवित्र व्यक्ति बनने के लिए आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के लिए सिद्धार्थ की पसंद को देखना शुरू किया और आचार्य नंद लाल ने बताया कि गौतम बुद्ध ने आम लोगों की पीड़ा को देखकर ऐसा

जीवन जीने का निर्णय किया। 29 वर्ष की आयु के तुरंत बाद उन्होंने महल के बाहर चीजों को देखना शुरू किया और विशेष रूप से तीन चीजों ने उनका ध्यान खींचा। उसने एक बूढ़े आदमी एक शव

और एक बीमार आदमी को देखा। इन बातों ने उन्हें एहसास कराया कि जीवन में बहुत दुख शामिल हैं और उन्होंने अपनी राजपाट को छोड़कर सादा जीवन जीने का फैसला किया। तत्पश्चात वे गहरे

ध्यान में चले गए और आत्मज्ञान या निर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि डा. बीआर अंबेडकर भी भारत में वर्ण व्यवस्था, जाति आधारित विभाजन और भेदभाव से इतने दुखी हुए कि उन्होंने आस्था और उपासना की पद्धति को ही हमेशा के लिए ही त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बीआर अंबेडकर 64 साल पहले आज ही के दिन गौतम बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे, 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में बाबा साहेब अपने 3 लाख 80 हजार समर्थकों के साथ हिंदू आस्था को छोड़कर बौद्ध धर्म का पालन करने लगे। इस अवसर पर संविधान की प्रस्तावना और प्रतियां भी बांटी गईं तथा शिक्षा विषय पर परिचर्चा की गई। इस कार्यक्रम में एसडीओ राम लाल, रतन लाल, देव राज, रोशन लाल, सहित आदि उपस्थित थे।

स्नेह अस्पताल कालाअंब में अब कार्डधारकों को मिलेगी मुफ्त सुविधा



टीम एक्शन इंडिया/नाहन/एसपी जैरथ

जिला सिरमौर के कालाअंब में स्नेह मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हिमकंवर व आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को आर्थो व स्त्री रोग से संबंधित सुविधाएं प्रदान करने जा रहा है। कार्ड धारक अब अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकेंगे स्नेह अस्पताल के डॉक्टर मोहित गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हड्डियों (आर्थो) से संबंधित हर प्रकार का इलाज जैसे कि फ्रैक्चर, गठि 7 और जोड़ो का प्रत्यारोपण, ओर्थो-स्कोपी की सुविधा भी उपलब्ध है। अस्पताल में

स्त्री रोग से संबंधित सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। जिसमें अस्पताल नामल डिलीवरी और दूरबीन के द्वारा रसोली से निकालने की सुविधा भी उपलब्ध है। अस्पताल में डिजिटल एक्स-रे, लैब टैस्ट और 24 घंटे आपातकालीन की सुविधा भी उपलब्ध है। हिमकंवर व आयुष्मान भारत कार्ड धारकों के लिए ये सारी सुविधाएं अब से स्नेह अस्पताल में मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएंगी तो। अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को मुफ्त इलाज किया जाएगा।

न्यूज फ्लैश

फिजिक्स वाला की आगामी एकैडमिक वर्ष में ऑफलाइन माध्यम से 160 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति देने की योजना

शिमला: भारत के प्रमुख एडटेक प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला (पीडब्ल्यू) ने छात्रों की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए अपने स्कॉलरशिप एडमिशन टैस्ट के बहुप्रतीक्षित दूसरे संस्करण को लॉन्च करने की घोषणा की है। फिजिक्स वाला एएसटी 8वीं से 12वीं कक्षा के मेधावी जेईई/ नीट उम्मीदवारों और ड्रॉपर्स के लिए 90 प्रतिशत तक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का मौका देता है जिससे वे विद्यापीठ सेंटर्स में अनुभवी फैकल्टी सदस्यों से उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें गुणवत्तापूर्ण ऑफलाइन शिक्षा को इंटर छात्र के लिए वहन करने योग्य व सुलभ बनाने के उद्देश्य से पीडब्ल्यू ने आने वाले एकैडमिक वर्ष में 160 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति देने की योजना बनाई है। पीडब्ल्यू एएसटी का आगामी चरण 2023 में प्रतिदिन 14 मई तक ऑनलाइन और 7 मई 14 मई को ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। छात्र पीडब्ल्यू ऐप या वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं और निष्कटम विद्यापीठ सेंटर्स में ऑफलाइन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं इस एकैडमिक वर्ष में फिजिक्स वाला पहले ही 100 करोड़ रुपये से अधिक की स्कॉलरशिप दे चुका है। अप्रैल 2023 तक 100 से अधिक छात्रों ने पीडब्ल्यू एएसटी के लिए पंजीकरण करा लिया है। पीडब्ल्यू एएसटी ने अब तक 40000 से अधिक छात्रों को सशक्त बनाया है और आने वाले चरण में और अधिक छात्रों को इससे फायदा होने की उम्मीद है। बिहार, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, असम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ व अन्य राज्यों में पीडब्ल्यू एएसटी कई चरणों में आयोजित हो रहा है पीडब्ल्यू एएसटी परीक्षा जो छात्रों की मानसिक क्षमता और विद्यालयी योग्यता का आकलन करती है पीडब्ल्यू के अत्यधिक अनुभवी फैकल्टी द्वारा डेवलप की गई है। ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा में आठवीं से बारहवीं कक्षा के लिए गणित, विज्ञान और मानसिक क्षमता शामिल है जिसमें ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए गणित, विज्ञान और मानसिक क्षमता शामिल है। फिजिक्स वाला के संस्थापक और सीईओ अलख पांडे ने कहा हमारी पीडब्ल्यू एएसटी पहले पूरे भारत में योग्य छात्रों को स्कॉलरशिप और मेंटरशिप के माध्यम से विशेष शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए फिजिक्स वाला की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है हमारे छात्रवृत्ति कार्यक्रम को अधिक से अधिक छात्रों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है यही उद्देश्य है कि हम इसे कई चरणों में संचालित करते हैं छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा मोड में से किसी एक का चुनाव करने को स्वतंत्र है।



एचडीएफसी बैंक का प्रमुख लक्ष्य भारत का पसंदीदा बैंकिंग भागीदार बनना

शिमला: एचडीएफसी बैंक भारत का प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक बेहतर ग्रामीण जीवन को सक्षम करने के लिए आदर्श वित्तीय भागीदार बनने की कल्पना करता है। बैंक ने देश के अर्थ शहरी और ग्रामीण अंचलों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की योजना बनाई है। इस मजबूत प्रयास के एक हिस्से के रूप में अधिक से अधिक शाखाओं को ब्रांच नेटवर्क में जोड़ने और इस बाजार वर्ग के लिए कस्टमाइज्ड उत्पादों को लॉन्च करने का इरादा रखता है। बैंक इन स्थानों पर चालू पित वर्ष में 675 से अधिक शाखाओं को जोड़ने की तैयारी कर रहा है ताकि शाखाओं की कुल संख्या 5000 के करीब हो जाए। 31 मार्च 2023 तक बैंक की कुल 7821 शाखाओं में से 52 प्रतिशत अर्थ शहरी और ग्रामीण अंचलों में थी। आरविंद वोहरा ग्रुप बैंक रिटेल ब्रैंडिंग ने कहा कि एक बैंक के रूप में हमारा मानना है कि भारत कल के भारत के लिए महत्वपूर्ण है और ग्रामीण जीवन में सुधार भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे अतिरिक्त ग्राहक जुड़ाव मॉडल और अर्थ शहरी और ग्रामीण भौगोलिक क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए अलग-अलग ऑफर्स बैंक को ग्रामीण जीवन को समृद्ध बनाने के लिए एक आदर्श भागीदार की भूमिका निभाने की स्थिति में लाते हैं वोहरा ने कहा कि आज महानगरों और टियर 1 शहरों से परे रहने वाले भारतीयों का एक बड़ा वर्ग लहरी भारत के समान जीवन स्तर और बैंकिंग उत्पादों/वित्तीय सेवाओं की तलाश करता है। जब इस जरूरत को पूरा करने की बात आती है तो एचडीएफसी बैंक सबसे आगे रहा है। विशेष जैसे कस्टमाइज्ड उत्पादों को लॉन्च करना इस दिशा में एक और कदम है।



टीम एक्शन इंडिया/कुल्लू/श्याम कल्वी

जिला लाहौल स्पीति के विश्व प्रसिद्ध त्रिलोक नाथ मंदिर जो कि हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोगों का आस्था का केंद्र है, त्रिलोक नाथ मंदिर परिसर में महात्मा बुध की जयंती के अवसर पर लाहौल बोधि सभा और यह यंग ड्रोकपा एसोसिएशन के सौजन्य से प्रथम बार बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया इस यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं व लामाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार व पुलिस अधीक्षक लाहौल

स्पीति मयंक चौधरी भी मौजूद रहे। त्रिलोकनाथ मंदिर में उन्होंने विशेष पूजा-अर्चना की और लोगों के सुख समृद्धि की कामना की इस मंदिर की विशेषता यह है कि दो धर्मों के लोग हिंदू एवं बौद्ध समुदाय अपनी-अपनी पूजा पद्धति के अनुसार यहां सदियों से आपसी भाईचारे के ताने-बाने को मजबूती प्रदान कर रहे हैं जो कि एक अनूठी मिसाल कायम किए हुए हैं। हिंदू धर्म के अनुयाई इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को भगवान शिव के रूप में मानते हैं और बुद्ध धर्म के लोग आर्य अवलोकितेश्वर के रूप में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह मंदिर शिखर शैली में निर्मित है और लाहौल में इस शैली

सुनेहरा में इंदु बाला बनी पंच, चिंतपूर्णी में धूमधाम से मनाई गई माता छिन्नमस्तिका की जयंती

रायजादा ने दी बधाई

ऊना, 5 मई (राजन पुरी) विस क्षेत्र ऊना के तहत गांव सुनेहरा में पंच पद के हुए उपचुनाव में विजयी रही इंदु बाला को पूर्व विधायक सतपाल रायजादा बधाई देने पहुंचे। रायजादा ने इस मौके पर स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने गांव के विकास कार्यों बारे प्रस्ताव भेजें। विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश और गांव का विकास ही कांग्रेस सरकार का लक्ष्य है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अहम भूमिका निभाने की जरूरत है। रायजादा ने कहा पूर्व भाजपा सरकार में विकास

कार्यों के लिए गांव स्तर पर भेदभाव रखा गया अपनाया था, जिसके चलते प्रदेश में समान विकास नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही व्यवस्था बदली है। हर व्यक्ति की समस्या सुनी जा रही है और उन अतिशीघ्र निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी गांव वासियों से संवाद कर विकास कार्यों को करवाए। इस मौके पर ऊना ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा शर्मा, लंबरदार जतिंद्र कुमार, एनएसयूआई की कार्यकर्ता अंकिता शर्मा और राम कुमार सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

टीम एक्शन इंडिया/ऊना/राजन पुरी

प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी के मंदिर में शुक्रवार को छिन्नमस्तिका जयंती धूमधाम से मनाई गई। छिन्नमस्तिका जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर को रंग-बिरंगे फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। वहीं, माता की जयंती के मौके पर श्रद्धालुओं ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर पावन पिंडी के दर्शन करते हुए मां के दरबार में शीश नवाया और जनकल्याण के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर करीब 24 घंटे की महायज्ञ पुजारियों के द्वारा आयोजित किया गया था। सुबह महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ साथ माता की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर



हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री चिंतपूर्णी पहुंचकर माता की पावन पिंडी के दर्शन किए। मंदिर के पुजारी संदीप कालिया ने बताया कि जब माता की छिन्नमस्तिका के रूप में उत्पत्ति हुई, तब यह इस दिवस को छिन्नमस्तिका जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने सभी

श्रद्धालुओं को माता श्री छिन्नमस्तिका जयंती की बधाई देते हुए माता से जगत कल्याण के लिए भी प्रार्थना की। उधर, मंदिर आयुक्त और उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि माता श्री छिन्नमस्तिका की जयंती के उपलक्ष्य में चल रहा मेला शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा

है। माता के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालु के लिए तमाम सुविधाएं जुटाई गई हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर की सजावट के लिए श्रद्धालुओं का ही सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से मंदिर क्षेत्र में शांति पूर्ण माहौल बनाए रखने की भी अपील की।

बीजापुर सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत

टैक्टर ने ओवरटेक करते हुए स्कूटी को मारी टक्कर, मामला दर्ज

टीम एक्शन इंडिया/ऊना/राजन पुरी

थाना अंब के तहत बीजापुर में अज्ञात टैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि उसके दो बेटे जख्मी हुए हैं। मृतक की पहचान सौरभ धीमान निवासी भैरा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया। जबकि दोनों बेटों का सीएचसी अंब में उपचार करवाया गया। वहीं पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर

8 मृतक के दो बेटे जख्मी हुए हैं। मृतक की पहचान सौरभ धीमान निवासी भैरा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया। जबकि दोनों बेटों का सीएचसी अंब में उपचार करवाया गया। वहीं पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर

आ रहे एक टैक्टर दौली ने ओवरटेक करते हुए स्कूटी को टक्कर मार मौके से फरार हो गया। टक्कर में बच सौरभ धीमान अपने दोनों बेटों के साथ सड़क पर गिर गया। हादसे में घायल तीनों को उपचार के लिए सीएचसी अंब ले जाया गया, जहां पर सौरभ धीमान को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। एसपी ऊना अर्जित सेन ने बताया कि पुलिस ने मृतक सौरभ धीमान की पत्नी अनुराधा की शिकायत पर अज्ञात टैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की होगी जीत: कामरेड

टीम एक्शन इंडिया/ऊना/राजन पुरी

शिमला नगर निगम में कांग्रेस का परचम लहराने से कर्मचारियों व मजदूरों में खुशी की लहर है। यह बात हिमाचल प्रदेश इंटक के महासचिव कामरेड जगत राम शर्मा ने कही। शुक्रवार को जारी ब्यान में जगत राम शर्मा ने कहा कि हिमाचल में मंडी लोक सभा की सीट प्रतिभा के जीतने के बाद प्रदेश विधान सभा चुनाव में शिमला नगर निगम के चुनावों तक जारी है और 2024 के लोकसभा के चुनावों तक जारी रहेगा।

हमीरपुर शहर में फुटपाथ बनाने का काम अब जल्द ही होगा शुरू

टीम एक्शन इंडिया/हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ

हमीरपुर शहर में सड़क के दोनों किनारों पर फुटपाथ बनाने का जो काम पिछले कई सालों से आधा लटका हुआ है वह अब जल्द ही शुरू हो जाएगा। हद तक निजात मिलेगी। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने कमर कस ली है। विभाग ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर शहर के मेन बस स्टैंड से लेकर बागवानी विभाग के दफ्तर तक सड़क के दोनों किनारों पर फुटपाथ बनाने के लिए निशानदेही लेने का काम जोरों से चला है तथा शीघ्र ही इसे पूरा करके अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। हमीरपुर जिला मुख्यालय में पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा राजस्व विभाग को मुख्य सड़क पर निशानदेही को हटा देना कहा गया था जिसके बाद निशानदेही की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है अब निशानदेही के बाद कहां पर सरकारी जमीन है यह तय हो पाया है। निशानदेही के दौरान कई स्थानों पर भवन मालिकों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। निशानदेही के दौरान जहां पर भी सरकारी जमीन सड़क के दोनों किनारों पर निकली है वहां पर लाल निशान पेंट से लगा दिए गए हैं। अब जहां जहां पर भी फुटपाथ बनाया जाना है वहां पर इस अतिक्रमण को हटाने का काम



किया जाएगा ताकि शहर में फुटपाथ बनाने का जो काम बचा हुआ है उसे पूरा किया जा सके। शहर के अधिकतर इलाकों में फुटपाथ का काम पूरा हो चुका है लेकिन सिर्फ करीब 1 किलोमीटर के दायरे में फुटपाथ का निर्माण होना बचा हुआ है शहर के लोग बार-बार इस शहर की सबसे मेन सड़क जहां पर ट्रैफिक का लोड सबसे ज्यादा रहता है वहां पर पैदल चलने वालों के लिए दोनों किनारों पर फुटपाथ बनाने की मांग करते आए हैं। अब उनकी यह मांग जल्द पूरी होने की उम्मीद बढ़ गई है। एसडीएम हमीरपुर मनीष सोनी ने बताया कि राजस्व विभाग के द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग के आग्रह पर मेन सड़क की निशानदेही का कार्य किया जा रहा है उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग के कागो व पटवारी के द्वारा रेवेन्यू रिकर्ड में अधिकृत भूमि की निशानदेही कर सड़क की भूमि चिह्नित करवाई जा रही है।

जिला लाहौल स्पीति के विश्व प्रसिद्ध त्रिलोकनाथ मंदिर में बुद्ध जयंती के अवसर पर किया गया भव्य आयोजन

टीम एक्शन इंडिया/कुल्लू/श्याम कल्वी

जिला लाहौल स्पीति के विश्व प्रसिद्ध त्रिलोक नाथ मंदिर जो कि हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोगों का आस्था का केंद्र है, त्रिलोक नाथ मंदिर परिसर में महात्मा बुध की जयंती के अवसर पर लाहौल बोधि सभा और यह यंग ड्रोकपा एसोसिएशन के सौजन्य से प्रथम बार बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया इस यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं व लामाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार व पुलिस अधीक्षक लाहौल



का यह इकलौता मंदिर है। त्रिअंग योजना में निर्मित इस मंदिर के वगार्क गर्भगृह में संगमरमर की छह भुजाओं वाली सुंदर मूर्ति

ललिताआसन में प्रतिष्ठित है मूर्ति के ललाट बिंब पर एक छोटे आकार की प्रतिमा स्थापित है जिसे बुद्ध धर्म के अनुयाई महात्मा

बुद्ध के नाम से एवं हिंदू लोग अन्न धन के देवता के रूप में मानते हैं। उपयुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने इस अवसर पर

लोगों को भगवान गौतम बुद्ध की जयंती पर बधाई देते हुए कहा कि पूरे विश्व में गौतम बुध की जन्म व बोधगया में ज्ञान प्राप्ति, महा निर्माण के रूप में मना रहे हैं। बुद्ध धर्म लोगों को आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करता है उनके उपदेश व सिद्धांत हमें अपने जीवन में भी अंगीकार करने चाहिए। इससे पूर्व लाहौल महाबोधि सभा के अध्यक्ष छेरिंग आंगवल ने उपायुक्त को टोपी शॉल एवं खतक पहनाकर उनका स्वागत किया। मंदिर परिसर में स्थानीय वेशभूषा में सुसज्जित महिलाओं ने भी उपायुक्त राहुल कुमार का धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार भव्य स्वागत किया। उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने दीप प्रज्वलित कर

शोभा यात्रा का शुभारंभ किया लाहौल यंग ड्रुपका एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरशील कुमार ने त्रिलोकनाथ मंदिर में आयोजित बुद्ध जयंती के आयोजन व इसके महत्त्व पर अपने विचार प्रस्तुत किये और उपायुक्त राहुल कुमार का व एसपी मयंक चौधरी का कार्यक्रम में शिरकत करने पर लाहौल वासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। इसके उपरांत त्रिलोकनाथ से हिंसा गांव तक श्रद्धालुओं ने महात्मा बुद्ध की पालकों के साथ धार्मिक ग्रंथ पोथीओं को श्रद्धा सुमन अर्पित कर, शिरो धारण कर शोभायात्रा में भी शामिल हुए। लामाओ द्वारा धार्मिक अनुष्ठान के मुताबिक मंत्र उच्चारण करते हुए अहिंसा व

शांति का भी संदेश दिया महिला मंडल त्रिलोकनाथ हिंसा व उदयपुर की महिलाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया उनकी प्रस्तुति पर उपायुक्त ने पांच-पांच हजार देने व लाहौल महाबोधि सभा के द्वारा बुद्ध जयंती के भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए 10 हजार देने की भी घोषणा की। इस शुभ अवसर पर एसडीएम त्रिलोकनाथ से हिंसा गांव तक मंदिर के कार दार वीरभारद, सुरेंद्रकुमार, प्यार सिंह व सौरभ और ग्राम पंचायत प्रधान त्रिलोकनाथ दिनेश कुमार, उदयपुर के लक्ष्मण ठाकुर सहित अन्य जगप्रतिनिधि व सम्मनित वरिष्ठ लामा गण भी मौजूद रहे।

न्यूज फ्लैश

इयूरोप्लार्ई के बड़े आकार के प्लाईवुड, ब्लॉकबोर्ड, वीनियर्स और दरवाजों को मिला शानदार रेस्पॉन्स

नई दिल्ली। इयूरोप्लार्ई के बड़े आकार के प्लाईवुड, ब्लॉकबोर्ड, वीनियर्स और दरवाजों को भवन निर्माण उद्योग से शानदार रेस्पॉन्स मिला है। इयूरोप्लार्ई ने 10 और 9 फीट के बड़े आकार के प्रॉडक्ट्स इयूरो प्लस ब्रैंड के नाम से लॉन्च किए हैं। आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स उन साइट्स के लिए इन प्रॉडक्ट्स को आदर्श मान रहे हैं, जिसमें बिना किसी जोड़ के ई-टॉलरेंस की जरूरत होती है। इयूरोप्लार्ई के अनांखे आकार के ये नए-ए प्रॉडक्ट्स कई इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये प्रॉडक्ट्स पर्यटन, होटल, अस्पताल, मॉल, बिजनेस कॉम्प्लेक्स, ऑफिस, टाउनहाउस, विला और रिजॉर्ट्स को सहज ढंग से जबर्दस्त लुक देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ह्यूड्यूरो प्लस रेंज के प्रॉडक्ट्स के फायदों के बारे में बताते हुए श्री अखिलेश चितलागिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ ऑपरिंग ऑफिसर, इयूरोप्लार्ई, ने कहा, ह्यूड्यूरो अपनी 65 से ज्यादा वर्षों की समृद्ध विरासत में नवाचार की संस्कृति विकसित की है, जिससे हमें इंडस्ट्री को जानने और समझने के लिए खास नजरिया मिलता है। हमने बड़े आकार के प्रॉडक्ट्स की जरूरत को महसूस किया। ह्यूड्यूरो प्लस रेंज की सफलता ने इंडस्ट्री की जरूरतों को बेहतर ढंग से जानने और समझने की हमारी काबिलियत की पुष्टि की है। 1957 में अपनी शुरुआत के बाद से ही कई नए आविष्कार करते रहने पर हमें गर्व है। हम उद्योग के लिए अपने उत्प्रेरकों और सेवाओं के साथ नए मानदंड स्थापित करना जारी रखेंगे।

इयूरो प्लस एक उच्च उपयोगिता वाले प्रॉडक्ट में विभिन्न समाधानों को शामिल करता है। इस प्रॉडक्ट रेंज को इन्स्टॉल करना बहुत आसान है। यह कीलों और रिसिन के उपयोग को कम करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मटेरियल वेस्टेज को भी कम करता है। इसके अतिरिक्त, इयूरो प्लस विभिन्न रंगों के सजावटी लिबास से सुसंगत है। एक निर्बाध और जोड़ रहित रूप प्रदान करने की वजह से स्थान की भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह इंडस्ट्री में तेजी से सफल हो रहा है। बिना किसी कट के विशाल बिल्डिंग का नजारा उसकी खूबसूरती में चार-चौंग लगा देता है। इससे देखने वालों की नजरों में उस इमारत का आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे उस स्थान की भव्यता और बढ़ जाती है।

आकाश बायजूस ने रोहतक में अपनी शाखा में नेत्र और दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया

रोहतक। परीक्षा तैयारी सेवाओं में भारत के अग्रणी आकाश बायजूस ने आज रोहतक में अपनी शाखा में नेत्र एवं दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। अपने कर्मचारियों को प्रेरित, व्यस्त और उत्पादक बनाए रखने के लिए, संगठनों को अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नियमित नेत्र और दंत परीक्षण की आवश्यकता होती है। ये परीक्षाएं दृष्टि और दंत समस्याओं के शुरुआती संकेतों को पहचानने में सहायता करती हैं, जिनका इलाज खराब होने से पहले किया जा सकता है। एक छात्र की शारीरिक और मानसिक परीक्षा, साथ ही साथ उनके शैक्षणिक और मानसिक प्रदर्शन, उसके फिटनेस और स्वास्थ्य के स्तर से ही प्रभावित होते हैं। इस प्रक्रियाओं दुनिया में तैयारी का हर दिन मान्य रखता है और इसलिए छात्रों का पूरी तरह से स्वस्थ होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे अपनी शारीरिक क्षमताओं में जितना अधिक आत्मविश्वासारी बनेंगे, उनके अपने लक्ष्य में सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसी तरह, कर्मचारी हमेशा संगठन के लिए एक बड़ी संपत्ति होते हैं। उनकी समग्र फिटनेस और स्वास्थ्य का उनके प्रदर्शन वितरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आकाश बायजू अपने कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस अवसर पर, परमेश्वर झा, रीजनल निदेशक, आकाश बायजूस ने कहा, हमारे छात्रों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए मुफ्त नेत्र और दंत चिकित्सा शिविरों की पेशकश करने का हमारा लक्ष्य उनके स्वास्थ्य में सुधार करना और उनकी भलाई की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना है। हर किसी का व्यस्त कार्यक्रम होता है जो नियमित जांच-पड़ताल को छोड़ देता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हम एक कंपनी के रूप में इस पहल से कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। यह तनाव के स्तर को कम करने में मदद करेगा जिससे मनोबल और उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

विधायक पंवार ने सुनी समस्याएं

अधिकारियों को महावीर कॉलोनी में नियमित पेयजल आपूर्ति देने के लिए निर्देश

टीम एक्शन इंडिया/ सोनीपत।

विधायक सुरेंद्र पंवार ने वार्ड-11 से पार्षद इंदु संजीव वलेचा के साथ न्यू महावीर कॉलोनी में पहुंचकर कॉलोनीवासियों की समस्याएं सुनीं। कॉलोनीवासियों ने बताया कि उनकी गली में पेयजल की किल्लत बनी हुई है, यदि किसी समय पेयजल आता है तो बदबूदार पानी आता है। विधायक सुरेंद्र पंवार ने तुरंत नगर निगम अधिकारियों को बुलाया और कॉलोनीवासियों की समस्याओं का समाधान करने व नगर निगम की तरफ से पेयजल की आपूर्ति का समय भी निर्धारित करने के निर्देश दिए। विधायक सुरेंद्र पंवार के निवास



स्थान पर न्यू महावीर कॉलोनी के निवासियों के साथ बैठक का दृश्य। विधायक सुरेंद्र पंवार ने तुरंत नगर निगम अधिकारियों को बुलाया और कॉलोनीवासियों की समस्याओं का समाधान करने व नगर निगम की तरफ से पेयजल की आपूर्ति का समय भी निर्धारित करने के निर्देश दिए। विधायक सुरेंद्र पंवार के निवास

पंवार कालोनीवासियों के साथ मौके पर पार्षद इंदु संजीव वलेचा के साथ पहुंचे। विधायक सुरेंद्र पंवार ने एजेंसी को बुलाया और खुदाई करवाकर लीकेज को बंद करवाया। विधायक सुरेंद्र पंवार ने मौके पर खड़ा होकर पानी की जांच की। विधायक सुरेंद्र पंवार



ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो समसिंबल की मोटर खराब हुई है, उस मोटर को भी जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। इसके साथ ही एरिया में पेयजल आपूर्ति का समय भी निर्धारित किया जाए। विधायक सुरेंद्र पंवार ने कहा कि शहरवासियों

को गर्मी के मौसम में शुद्ध पेयजल व पूर्ण मात्रा में उपलब्ध करवाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए वह बीते दिनों सेक्टर 23 वाटर बूरिस्टिंग स्टेशन पर पहुंचे थे और उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को पानी की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए थे।

भगवान श्री गोरखनाथ का जन्मउत्सव धूमधाम से मनाया



टीम एक्शन इण्डिया/ कुरुक्षेत्र/लाडवा (दलबीर मलिक) लाडवा के प्राचीन गुगा माड़ी में भगवान श्री गोरखनाथ का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। जिसको लेकर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में स्टालवाट फाउंडेशन के चेयरमैन एवं समाजसेवी संदीप गर्ग ने शिरकत की। माड़ी के सेवक धर्मपाल ने बताया कि शुक्रवार गुगा माड़ी पर पहली बार श्री गोरखनाथ

का जन्म उत्सव मनाया गया है। माड़ी पर सुबह 9 बजे हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, उसके बाद 11 बजे झंडे की रस्म पूरी की गई। जिसमें समाजसेवी संदीप गर्ग द्वारा झंडे की रस्म को पूरा किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे समाजसेवी संदीप गर्ग ने कहा कि बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भगवान गुरु गोरखनाथ के जन्म उत्सव उत्सव पर उन्हें माड़ी के सेवादारों ने यहां पहुंचने का अवसर प्रदान किया।

हकेवि में विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित



टीम एक्शन इंडिया/दिनेश यादव महेंद्रगढ़।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेवि), महेंद्रगढ़ के महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ द्वारा संस्कृत विभाग, योग विभाग व शिक्षक शिक्षा विभाग के सहयोग से विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित यह दूसरा व्याख्यान महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य: वॉक द टॉक ऑन फिटर मॉम हैप्पी होम पर आधारित रहा। सेना की पूर्व कप्तान सुश्री रिंतु कुमार सिंह कार्यक्रम में विशेषज्ञ वक्ता के रूप में उपस्थित रहीं। सुश्री रिंतु कुमार ने बताया कि किस तरह से गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य

कैसे महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने महिलाओं में प्रसव के बाद के अवसादों से निपटने के तरीकों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। विश्वविद्यालय की समकूलपति प्रो. सुपमा यादव ने मातृ स्वास्थ्य के महत्त्व से प्रतिभागियों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक स्वस्थ महिला न केवल अपने परिवार में बल्कि समाज में खुशी ला सकती है। महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ की संयोजक डॉ. रेनु यादव ने बताया कि प्रकोष्ठ द्वारा महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर साल भर व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ की सदस्य डॉ. सुमन ने अतिथि का स्वागत किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में आमजन को किया जागरूक

टीम एक्शन इण्डिया/कुरुक्षेत्र (दलबीर मलिक)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम नितिन राज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी के दिशा-निर्देशानुसार 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर कोर्ट परिसर और लघु सचिवालय में एक हेल्प डेस्क लगाया गया। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से कोर्ट परिसर और लघु सचिवालय में आने वाले आमजन को अपने लॉबिटर केस लोक अदालत के माध्यम से समाधान करवाने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान पीलवी द्वारा आमजन को पंपलेट का भी वितरण किया गया।

ददलाना गांव में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई भगवान परशुराम जयंती

टीम एक्शन इंडिया/पानीपत ब्राह्मण धर्मशाला ददलाना में

भगवान परशुराम जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गई। इस अवसर पर हवन, यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमें सैकड़ों लोगों ने यज्ञ में आहुति डालकर भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर भगवान परशुराम का आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान परशुराम जयंती में विशेष रूप से पश्चिम आलोक राय महाप्रबंधक एनआरपीएल, अतुल नैथानी उप महाप्रबंधक मार्केटिंग डिविजन, मुकेश शर्मा मुख्य महाप्रबंधक आईएसआरपीएल और पूर्व सरपंच ददलाना नरेंद्र राणा ने कहा कि हमें अपने पूर्वजों के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। संत महात्मा किसी



एक समाज के न होकर सभी समाजों को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम को विष्णु के दशवतारों में से छठा अवतार माना जाता है। उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ किया था। इस यज्ञ से प्रसन्न

होकर इंद्रदेव ने उन्हें तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया था और फिर अश्व तृतीया को परशुराम का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि जब-जब पृथ्वी पर धर्म की हानी होती है और दुराचार बढ़ता है तो दुराचारी लोगों को सबक सिखाने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं।

डा अर्चना गुप्ता ने स्कूली बच्चों संग मनाया सीएम का जन्मदिन

गरीब स्कूली बच्चों के खून की जांच एवं आयरन की गोलियां बांट जिला भाजपा अध्यक्ष डा अर्चना गुप्ता ने मनाया मुख्य मंत्री का जन्मदिन

टीम एक्शन इंडिया/पानीपत जिला भाजपा अध्यक्ष डा अर्चना गुप्ता

ने जातल रोड शास्त्री कॉलोनी स्थित सेवा भारती स्कूल में गरीब बच्चों के संग मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर डा अर्चना गुप्ता ने बच्चों के खून की जांच करवाकर जिन बच्चों में खून की मात्रा कम पाई गई उनको आयरन की गोलियां अल्ट्राडाजोल तथा गुड चना दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज उन्हरता जन्मदिन है जिला भाजपा अध्यक्ष डा अर्चना गुप्ता ने इसी उपलक्ष्य में उन्हरत दीपक भी प्रज्वलित किया। इस



मौके पर उन्होंने मुख्य मंत्री के दीर्घ आयु एवम उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। अपने संबोधन डा

अर्चना गुप्ता ने कहा की मुख्य मंत्री का मनोहर लाल का जीवन सदा दीपक की भांति प्रकाश मान रहे।

उन्होंने कामना की की प्रदेश की मनोहर लाल का लंबे समय तक नेतृत्व मिलता ताकि विकास की रफ्तार इसी प्रकार तेज गति से आगे बढ़ती रहे। डा अर्चना ने कहा की मुख्य मंत्री में प्रदेश के सभी वर्गों हित के काम किए हैं। देश में सर्वाधिक फैसले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना, बागवानी पर भारी सब्सिडी देना, आखरी टेल तक पानी पहुंचाना सब किसान हितैषी काम किए। पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज संस्थाओं में आठ प्रतिशत स्थान आरक्षित कर देना, 20 किलो मीटर के दायरे में महिला कालेज का

प्रस्ताव, अंबेडकर भवन योजना, कन्या दान योजना, अंतोदय के तहत मेले लगा लोन देना मुख्य मंत्री के लोक हित काम है जिसमे हर वर्ग के उत्थान का संकल्प निहित है। गरीब आदमी के स्वास्थ्य की चिंता कर चिरायु योजना लाकर गरीब आदमी को इलाज की चिंता से मुक्त कर दिया है। हर हरियाणा वासी चिरायु योजना पा कर मुख्य मंत्री के चिरायु होने की कामना कर रहा है। इस मौके पर उनके साथ जिला भाजपा महा मंत्री रविंद्र भाटिया, महावीर सिंह दहिया, डा जगजीत आहूजा तथा अनिल मित्तल रहे।

किसानों को बताएं धान की सीधी बिजाई के फायदे

टीम एक्शन इंडिया/पानीपत कृषि विज्ञान केन्द्र उझा में

शुक्रवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता एसडीएम वीरेंद्र हुल ने की। शिविर में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक, कृषि विभाग के कर्मचारी व प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। शिविर में किसानों को धान की सीधी बिजाई के फायदे बताए गए एसडीएम वीरेंद्र हुल ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जल संरक्षण एवं अटल भू-जल योजना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जल की एक-एक बूंद कीमती है। हम सबको जल के संरक्षण के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचना ही नहीं बल्कि कारगर तरीके से इस पर काम भी करना चाहिए। दिन प्रतिदिन हो रहे जल दोहन के बारे में भी लोगों को जागरूक करना चाहिए।

निःशुल्क बोन मिनरल डेंसिटी शिविर का हुआ आयोजन

टीम एक्शन इण्डिया/ कुरुक्षेत्र (दलबीर मलिक) श्रीकृष्णा आयुष

विश्वविद्यालय के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल में शुक्रवार को शल्य तंत्र विभाग द्वारा फ्री बोन मिनरल डेंसिटी कैप का आयोजन किया गया। जिसमें 102 से अधिक रोगियों की बोन मिनरल डेंसिटी की जांच की गई। इसके साथ ही रोगियों को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा हड्डियों की मजबूती के लिए उचित सलाह भी दी गई। प्राचार्य डॉ. देवेन्द्र खुराना ने बताया कि यह निःशुल्क बोन



मिनरल डेंसिटी शिविर का दूसरा आयोजन था। हर महीने के पहले शुक्रवार को आयोजित किया जाता है। जिसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। अभी तक 250 से

अधिक मरीजों की डेक्सा मशीन की मदद से हड्डियों का घनत्व जांचा गया है उन्होंने कहा कि उम्र दरार ही नहीं कम उम्र के व्यक्ति को भी हड्डी में मिनरल की समस्या हो

सकती है। हड्डियों और जोड़ों में दर्द आज की भाग-दौड़ वाली जिंदगी में आम बात हो गई है। लाइफस्टाइल और खानपान के चलते इस होने वाली परेशानी में ज्यादातर लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय घर पर ही कई तरह के ट्रीटमेंट करने लगते हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं। मगर विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह और उचित आहार-विहार से हम अपनी हड्डियों की स्वस्थ और मजबूत रख सकते हैं। इस अवसर पर शल्य तंत्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र चौधरी व डॉ. अनामिका उपस्थित रहे।

सीवाईएसएस ने सीएम का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया

सीवाईएसएस ने मुख्यमंत्री का जन्मदिन हरियाणा बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया: भारत

टीम एक्शन इण्डिया/ कुरुक्षेत्र (दलबीर मलिक)

सीवाईएसएस से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अध्यक्ष भारत बराड़ ने कहा कि पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन पर है, सीएमआई के आंकड़े किसी से छुपे नहीं हैं, शिक्षित बेरोजगारी दर हरियाणा में बढ़ती जा रही है। हरियाणा में या तो भर्ती निकलती नहीं है अगर निकलती है वो रह हो जाती है या हरियाणा सरकार कैसिल कर देती है। हरियाणा का युवा दर-दर की ठोकरें खाते पर मजबूर है, मुख्यमंत्री जी कोशल



रोजगार निगम जैसी योजना बनाकर युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष शुभम राणा ने कहा की

हरियाणा सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है हर रोज बेजगारी दर बढ़ती जा रही है सबसे ज्यादा बेरोजगार हरियाणा में है और सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाते घूम रही है। माननीय मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए की जन संवाद कार्यक्रमों पर पैसा लगाकर जो युवाओं की समस्या सुनने का दिखावा कर रहे है उसको न करें बल्कि जो युवा सड़कों पर हैं उनकी बात को सुनें। पहले काग्रेस और अब बीजेपी सरकार दोनो ने ही देश के युवाओं और हरियाणा के युवाओं के साथ

दिखा किया है जो रोजगार देने के वादों के बलबूते सत्ता में आए थे वो आज न तो रोजगार दिला पाए न युवाओं को अच्छी शिक्षा। कैम्पस अध्यक्ष मनदीप सिंह और अंबाला से जिला अध्यक्ष गुरतेज सिंह ने कहा की युवा नशे की ओर बढ़ रहा है विदेशों में जाकर मजदूरी करने को मजबूर है और सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाते घूम रही है। अगर सरकार सच में युवाओं की हितैषी है तो रोजगार दे न की ढकोसले और झूठे वादे। सरकार को युवाओं के लिए सही फैसले लेने चाहिए।

डाबर आयुष टेबलेट 64 के 111 बॉक्स व तुलसी और आवला टेबलेट के 40 बॉक्स सौंपे गए

टीम एक्शन इण्डिया/ कुरुक्षेत्र (दलबीर मलिक) सेवा ट्रस्ट

यूके (भारत) द्वारा स्वस्थ भारत, स्वस्थ समुदाय अभियान के तहत जिला आयुर्वेदिक कार्यालय कुरुक्षेत्र में वॉचमैन व जर्करतमद टांगों के लिए डाबर आयुष टेबलेट 64, तुलसी टेबलेट व आवला टेबलेट वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह



की अध्यक्षता सेवा ट्रस्ट यूके (भारत) के चेयरमैन नरेश मित्तल, विवेक शर्मा व जिला कोऑर्डिनेटर पवन मित्तल ने की। सेवा ट्रस्ट यूके भारत के चेयरमैन नरेश मित्तल विवेक शर्मा व पवन मित्तल ने बताया कि जिला आयुर्वेद अधिकारी डाक्टर सुदेश

जाटियान को डाबर आयुष टेबलेट 64 के 111 बॉक्स व तुलसी और आवला टेबलेट के 40 बॉक्स सौंपे गए जिनकी कीमत 14 लाख के आस पास है ताकि ये टेबलेट वितरित व जर्करतमद लोगों के इलाज में काम आ सके।



रुबीना दिलैक

ने अपनी बड़ी बहन की हल्दी-मेहंदी का वीडियो किया शेयर, जमकर मस्ती करती नजर आई एक्ट्रेस

टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, ये वीडियो रुबीना दिलैक की बड़ी बहन की शादी की है, वीडियो में रुबीना अपनी बहन की हल्दी और मेहंदी एंजाय करती नजर आ रही हैं।

रुबीना दिलैक ने शेयर किया वीडियो

रुबीना दिलैक ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वे खुब एंजाय करतीं और डांस करतीं नजर आ रही हैं। रुबीना ने बहन रोहिणी की हल्दी पर गाजरी रंग का लहंगा पहने नजर आईं, वहीं एक्ट्रेस ने हल्दी पर पीले रंग का लखनवी कुर्ता पहना था, दोनों आउटफिट्स में रुबीना बेहद खूबसूरत लग रही हैं, रुबीना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

रुबीना ने वीडियो शेयर करने के साथ लिखा प्यारा कैप्शन

एक्ट्रेस ने अपने वीडियो पर कैप्शन में लिखा- एंड द मेमोरीज बिगेन फॉरएवर, वीडियो में रुबीना अपनी बहन रोहिणी की चूमती हुईं और प्यार से हल्दी लगाती हुईं नजर आ रही हैं, वहीं अभिनव शुक्ला दोनों बहनों को अपने कैमरे में कैद करते हुए दिखाते हैं।

फैंस रुबीना के आउटफिट्स पर रिएक्ट कर रहे हैं

एक यूजर ने रुबीना को देख कर लिखा- हाए ये ये लो आउटफिट, तो किसी ने कहा- रुबीना इस द बेस्ट, एक यूजर ने रुबीना से सवाल किया- रोहिणी दी की शादी नहीं हुई थी क्या? आपसे छोटी हैं वो? तो किसी ने पूछा आपकी कितनी बहने हैं, बता दें, रुबीना टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना माना नाम हैं, एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, दिन ब दिन उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, एक्ट्रेस रुबीना बिग बॉस 14 की विजेता रह चुकी हैं, इस शो पर रुबीना के हसबैंड अभिनव शुक्ला भी कंटेस्टेंट के तौर पर घर के अंदर गए थे, इस बीच दोनों के बीच काफी तकरार भी हुई और मनमुटाव भी हुए, खबरें तो ये भी आई थी कि अभिनव और रुबीना अलग हो रहे हैं, हालांकि बाद में कपल ने सॉर्टआउट किया और सब कुछ ठीक हो गया।



आदिपुरुष पर रोज हो रहा हंगामा, कौन है इसके निर्देशक ओम राउत, अजय देवगन के साथ कर चुके हैं फिल्म



मनोरंजन की दुनिया में जब भी ऐतिहासिक या धार्मिक पृष्ठभूमि पर फिल्में बनती हैं तो उस पर हंगामा जरूर होता है, कभी लुक पर तो कभी कंटेंट को लेकर विवाद गहराता है, ऐसा ही कुछ बीते कुछ समय से फिल्म 'आदिपुरुष' को लेकर हो रहा है, इस धार्मिक विषय पर आधारित इस फिल्म के कलाकारों की पहली झलक के साथ ही इस पर चर्चा होने लगी थी, कभी राजन की दाढ़ी, कभी जनेउ तो कभी सीता का मिंदूर सभी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल कटा था, जब विवाद बढ़ा तो फिल्म के निर्देशक ओम राउत ने फिल्म में कलाकारों के लुक में काफी कुछ बदलाव किए, ओम राउत कौन हैं और उन्होंने 'आदिपुरुष' से पहले कितनी फिल्मों को निर्देशित किया है, आइए, बताते हैं ओम राउत का जन्म मुंबई में 21 दिसम्बर 1981 को हुआ था, उनकी मां गीता टेलीविजन प्रोड्यूसर और पिता भरत कुमार सोनियर जर्नलिस्ट हैं, वहीं, ओम राउत के दादा जेएस बंदेकर डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर थे, मनोरंजन की दुनिया से ओम को बचपन से ही लगाव था, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने कई थिएटर प्ले किए हैं, साथ ही फिल्म 'करामाती कोट' से साल 1993 में उन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया था, ओम ने न्यूयॉर्क से बिगुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट में डिग्री ली है, साथ ही उनके पास इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री भी है।

16 जून को रिलीज होगी 'आदिपुरुष'

हिंदी फिल्म निर्देशन में 'आदिपुरुष' ओम राउत की दूसरी बड़ी फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म के बाद उन्होंने धार्मिक कंटेंट की फिल्म के लिए चुना है, फिल्म में कृति सेनन, प्रभास और सैफ अली खान लीड रोल में हैं, इसके अलावा भी फिल्म में कई खास चेहरे नजर आएंगे, 16 जून को रिलीज हो रही इस फिल्म को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है, आलोचनाओं के बाद ओम ने किरदारों के लुक में काफी बदलाव किया है, इसके साथ ही फिल्म के वीएफएक्स पर भी उन्होंने फिर से काम किया है, ऐसे में अब सबकी निगाहें 9 मई को रिलीज हो रहे फिल्म के ट्रेलर पर टिकी हैं।

पलक तिवारी मां श्वेता की दूसरी प्रेग्नेंसी से हो गई थीं परेशान, दिया था अजीब रिएक्शन, बोलीं- 'मैं तैयार ...'



टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) की बेटी पलक तिवारी (Palak Tiwari) इन दिनों बी-टाउन में चर्चा का विषय बनी हुई हैं, पलक तिवारी ने हाल ही में सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से बॉलीवुड में कदम रखा है, पलक तिवारी को एक्टिंग मां से विरासत में मिली है, ऐसे में हर किसी को उनसे काफी उम्मीदें हैं और हर कोई पलक की परसल लाइफ के बारे में भी जानना चाहता है, हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इस स्टारकिड ने अपनी परसल लाइफ से जुड़े कुछ बेहद अहम खुलासे किए हैं, पलक तिवारी ने मां श्वेता तिवारी की दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर बात की है, फिल्म करियरियन से बातचीत के दौरान एक्ट्रेस कहती हैं, मुझे याद है कि मैं बहुत परेशान हो गई थी जब मम्मी ने मुझे अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया था, मैं 15 साल की थी और नहीं चाहती थी कि घर में कोई और बेबी आए।

नए प्रेग्मन के लिए बड़ी थीं तैयार-
वह आगे बताती हैं, मैं ऐसे बीहेव कर रही थी जैसे मम्मी और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो और मम्मी ने मुझे छोड़ा दे दिया हो, मैं ये खबर सुनते ही ना ना ना बोलने लगी और फिर हिलाने लगी थी, मेरा रिएक्शन देख मम्मी ने पूछा, 'हाँ मारलब, क्या नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ', मैंने कहा मुझे तो किसी ने पहले नहीं बताया कि बेबी आने वाला है।

पहली बार बच्चे की शकल देख हुईं भावुक-
पलक आगे कहती हैं कि उनका रिएक्शन देख उनकी मां श्वेता भी थोड़े देर के लिए रंग रह गई थीं और फिर बाद में उन्होंने पलक को ओवर रिएक्ट करने से मना किया, 'किसी का भाई किसी की जान' एक्ट्रेस के मुताबिक पहली बार जब वह मां के साथ सोनोग्राफी के लिए गई थीं तब उनका दिल पिघल गया था, उन्होंने बताया कि सोनोग्राफी में बच्चे की शकल देखकर वह रोने लग गई थीं।

श्वेता के पहले पति की बेटी हैं पलक-
बता दें, पलक श्वेता तिवारी और एक चीथरी की बेटी हैं, उनके अलावा श्वेता का दूसरी शादी से एक बेटी भी है, हालांकि, अब ये एक्ट्रेस दूसरे पति से भी अलग हो चुकी हैं और अब वह एक सिंगल मदर हैं।

बॉलीवुड में फिल्म 'रश्मिका' से श्रीनिवास बेलमकोंडा डेब्यू करने जा रहे हैं, वहीं एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने रश्मिका मंदाना को डेट करने के रुमर्स पर रिएक्ट किया है।



रश्मिका मंदाना

को डेट करने के रुमर्स पर Sreenivas Bellamkonda ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या है रिश्ते का सच

रश्मिका मंदाना और श्रीनिवास बेलमकोंडा को हाल के दिनों में एक साथ कुछ इवेंट्स और मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, इसके बाद दोनों के डेटिंग के रुमर्स उड़ने लगे, वहीं 'छत्रपति' के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे श्रीनिवास ने अब फाइनली रश्मिका को डेट करने की अपवाहों पर चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि आखिर सच क्या है।

रश्मिका और श्रीनिवास के डेटिंग के थे रुमर्स

हाल की रिपोर्टों में टाया किया गया था कि एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ अपने कथित रिश्ते को खत्म करने के बाद रश्मिका श्रीनिवास बेलमकोंडा को डेट कर रही हैं, हालांकि रश्मिका ने ना तो अभी तक विजय के साथ अपने कथित ब्रेकअप और ना ही श्रीनिवास के साथ अपने कथित रिलेशनशिप पर रिएक्ट किया है, इन सबके बीच बेलमकोंडा ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये रश्मिका को डेट नहीं कर रहे हैं।

रश्मिका को डेट करने के रुमर्स पर श्रीनिवास ने क्या कहा ?
सिद्धार्थ कलन के चैट शो पर बात करते हुए श्रीनिवास बेलमकोंडा ने कहा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे आया, मुझे लगता है कि यह

बिल्कुल बेसलेस है क्योंकि हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे और हम वास्तव में एयरपोर्ट पर एक-दूसरे से टकरा गए थे, हम दोनों हैदराबाद से हैं और हम मुंबई आते रहते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि हम कई बार एक-दूसरे से टकराते रहते हैं, लेकिन शापद ही

एक या दो बार उन्होंने (पैरावी) हमें एयरपोर्ट से बाहर आते हुए देखा हो, यही है बस।

रश्मिका के बारे में श्रीनिवास ने क्या कहा ?

रश्मिका के बारे में बोलते हुए तेलुगु एक्टर ने आगे कहा, हमेशा एनर्जेटिक रहें, हमेशा उम्र एनर्जी को लाई, जब भी यह एक कमरे में होती है, तो वह बहुत एनर्जी लेकर आती है, वह इनको चाइब्रेट हैं कि मुझे लगता है कि उन्हें इसे

खोना नहीं चाहिए, रश्मिका और श्रीनिवास वर्क फ्रंट 'वॉरिउ' में देखा गया था, उनके पास पाइपलाइन में संदीप रेड्डी बॉया की हिंदी फिल्म 'एनिमल है', इस फिल्म में वह रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगी।



पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर, कच्चा तेल 73 डॉलर प्रति बैरल के करीब

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में तेजी का रुख है। ब्रेंट क्रूड 73 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 69 डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये, डीजल 89.62 रुपये, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये, डीजल 94.27 रुपये, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये, डीजल 92.76 रुपये, चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हफ्ते के पांचवें दिन शुक्रवाती कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.34 डॉलर यानी 0.47 फीसदी की वृद्धि के साथ 72.84 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। वेस्ट टेक्सस इंटरमीडियेट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड भी 0.33 डॉलर यानी 0.48 फीसदी की वृद्धि के साथ 68.89 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।



'डिजिटल क्रांति का अग्रदूत है भारत', हर माह होते हैं 600 करोड़ के डिजिटल लेनदेन

संयुक्त राष्ट्र। भारत की डिजिटल क्रांति आज पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन गई है। संयुक्त राष्ट्र में अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों ने भी भारत की उपलब्धि की सराहना की है और कहा है कि भारत, डिजिटल क्रांति का अग्रदूत है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा भारत में वित्तीय समावेश बैंक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि रूचि कश्यप ने कहा कि हम यह मानते हैं कि भारत की वित्तीय समावेश की यात्रा दूसरे विकासशील देशों के लिए उदाहरण बन सकती है।

विकासशील देशों को बहुत कुछ दे सकता है भारत
बैठक के दौरान कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और भारत के नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा कि भारत वित्तीय समावेश के मामले में विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेश, आर्थिक समावेश और विकास साथ-साथ चलते हैं। ये स्वास्थ्य और सतत विकास लक्ष्यों को भी प्रभावित करते हैं। आज भारत अपने अनुभव से विकासशील देशों को बहुत कुछ ऑफर कर सकता है।

रूचि कश्यप ने कहा कि दुनिया के देश 2030 के अपने सतत विकास लक्ष्यों से काफी पीछे हैं। दुर्भाग्य से सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट दिखा रही है कि अभी सिर्फ 12 प्रतिशत लक्ष्य तय दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं 50 प्रतिशत में तरक्की कमजोर और अर्थात् भी है। कश्यप ने कहा कि समावेशी विकास और आर्थिक विकास पर भी वित्तीय समावेश का गहरा असर पड़ता है। अगर हमें 2030 के अपने सतत विकास के लक्ष्यों को पाना है तो वित्तीय समावेश की दिशा में आगे बढ़ना ही होगा।

महंगाई से शाकाहारी थाली की कीमत 9 फीसदी व मांसाहारी की 32 फीसदी बढ़ी, चिकन का भाव सबसे ज्यादा

नई दिल्ली। करोड़ों की दाम लगातर बढ़ने से अप्रैल-दिसंबर, 2022 में शाकाहारी थाली की कीमत 9 फीसदी बढ़ गई जबकि मांसाहारी थाली के भाव में 32 फीसदी से अधिक का इजाजत हुआ है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान चिकन का भाव 55 फीसदी से ज्यादा बढ़ गया है, जबकि चारों की कीमतों में तेजी आई है। मांसाहारी थाली की कीमतों को बढ़ाने में चिकन की प्रमुख भूमिका है। गेहूँ के अटे के भाव 15 फीसदी बढ़ गया है। सब्जियों की कीमतें इसी दौरान 6% बढ़ी व एलपीजी का भाव 20% बढ़ गया। हालांकि, इस साल जनवरी से लेकर अब तक थाली की कीमतें स्थिर ही रही हैं। इस दौरान मांसाहारी थाली की कीमतें भी 2 फीसदी घट गई हैं। क्रिफिल के अनुसार, अप्रैल में खाद्य तेल और चिकन की कीमतों में स्थानांतरण आधार पर 16 फीसदी और 2-4 फीसदी तक की गिरावट आई है। गेहूँ के अटे और एलपीजी के दाम इस दौरान 12 फीसदी और 11 फीसदी अक्षर पर बढ़ गए हैं। इससे आने वाले समय में थाली की कीमतों में कमी आने की संभावना कम है।



भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनें निवेशक: निर्मला सीतारमण

इचियोन/नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'अमृतकाल' में भारत की आर्थिक विकास गाथा में शामिल होने का निवेशकों को निमंत्रण दिया। वित्त मंत्री ने दक्षिण कोरिया के इचियोन में निवेशकों की गोल्डमैन बैठक को संबोधित करते हुए भारत में हुए हाल के सुधारों का जिक्र भी किया। वित्त मंत्रालय के मुताबिक मंत्री ने निवेशकों को 'अमृतकाल' में भारत की उच्च आर्थिक विकास गाथा में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जो वृद्धि और निवेश के नए-नए अवसरों से भरा है। उन्होंने निवेशकों के साथ बैठक में कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए महमारी और



भू-राजनीतिक संघर्षों से उत्पन्न प्रतिकूल हालात का सामना करते हुए उम्मीद की किरण के रूप में खड़ा है।

(एडीबी) को नवोन्मेषी, जोखिम अपहारित रख की संभावना टटोलने की जरूरत है और भारत इसके लिए उसे प्रोत्साहित करता रह रहा है। सीतारमण ने एशियाई विकास बैंक के संचालन मंडल के पूर्ण सत्र की बैठक में एडीबी चार्टर से कर्ज सीमा हटाने और संचालन मंडल के अनुमोदन वाले पुंजी पर्याप्तता ढांचे (सीएफए) में सीमा बदलाव को लेकर भारत के समर्थन की बात कही। इस बीच सीतारमण ने एडीबी की 56वीं वार्षिक बैठक से इतर दक्षिण कोरिया के उप-प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था तथा वित्त मामलों के मंत्री चू कुंगु-हो से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्हें निवेश अवसरों के बारे में बताया। उन्होंने फिजी

के उप-प्रधानमंत्री विमान चंद प्रसाद के साथ अलग से बैठक की। उन्होंने इस वर्ष फरवरी में फिजी के नाडी में 12वें विषय हिंदी सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए फिजी सरकार की सराहना की। उल्लेखनीय है कि भारत की आजादी के 100 साल पूरा होने तक इसे आधुनिक राष्ट्र बनाने की दिशा में जारी 25 साल की अवधि को 'अमृतकाल' कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार अमृतकाल शब्द का इस्तेमाल किया था इसका उद्देश्य भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाना और गांवों और शहरों के बीच विकास की खाई को पाटना है।

अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छा संकेत- पहली बार 7 प्रतिशत से नीचे पहुंची बॉन्ड यील्ड

सरकार के लिए कम लागत पर कर्ज जुटा पाना आसान हो जाएगा

नई दिल्ली। दस साल के बेंचमार्क बॉन्ड की यील्ड 1 साल से अधिक समय बाद घटकर पहली बार 7 प्रतिशत से नीचे के स्तर पर पहुंच गई है। बॉन्ड यील्ड में आई कमी को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। इसके कारण सरकार के लिए कम लागत पर कर्ज जुटा पाना आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो ट्रेजरी बिल की यील्ड में भी गिरावट आ सकती है। आज के शुक्रवाती कारोबार के दौरान ही 10 साल के बेंचमार्क बॉन्ड की यील्ड 8 अप्रैल 2022 के बाद पहली बार घटकर 6.9 प्रतिशत के स्तर पर आ गयी। अगर 10 साल का बेंचमार्क बॉन्ड की यील्ड 7 प्रतिशत के स्तर से नीचे बनी रही, तो इससे सरकार के बीरोडिंग

कीट (कर्ज लेने की लागत) में कमी आने की उम्मीद बन सकती है। माना जा रहा है कि महंगाई में कमी आने के संकेत का असर बॉन्ड यील्ड पर पड़ रहा है। इसी वजह से इसमें गिरावट का रुख बनता नजर आ रहा है। हालांकि, अभी भी ट्रेजरी बिल (टी बिल) की यील्ड स्थिर बनी हुई है। पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार को 364 दिन के ट्रेजरी बिल की यील्ड 6.9 प्रतिशत से लेकर 7 प्रतिशत के स्तर के बीच बनी रही थी। ये स्थिति पिछले 2 सप्ताह से लगातार बनी हुई है। हालांकि,

सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ट्रेजरी बिल की यील्ड में भी कमी आ सकती है। ऐसा होने से सरकार की कर्ज लेने की लागत तो कम होगी ही, कर्ज लेने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी, जिसका इस्तेमाल सरकार अपनी भावी विकास योजनाओं में कर सकती है।

खताया जा रहा है कि आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार को आने वाले दिनों में रहत मिलने की उम्मीद बनी हुई है। इसकी एक बड़ी वजह बॉन्ड की कीमत में हाल के दिनों में आई बढ़ोतरी होना

ही है। आपको बता दें कि बॉन्ड की कीमत और उसकी यील्ड परस्पर विपरीत दिशा में संकेत देती हैं। बॉन्ड की कीमत गिरने पर उसकी यील्ड बढ़ जाती है, वहीं बॉन्ड की कीमत बढ़ने से यील्ड के स्तर में कमी आती है।

केंद्र सरकार को अगले ग्रीन बॉन्ड ऑफरिंग से भी काफी उम्मीद है। माना जा रहा है कि अगले ग्रीन बॉन्ड ऑफरिंग से सरकार को तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रीमियम मिल सकता है। प्रीमियम उस प्रीमियम को कहते हैं, जिसे निवेशक सस्टेनेबल इवेंट के लिए चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सरकार को अपने पहले ग्रीन बॉन्ड ऑफरिंग से 5.6 बेसिस प्वाइंट्स प्रीमियम मिला था। ग्रीन बॉन्ड के अगले ऑफरिंग में ही ये घटकर 3.4 बेसिस प्वाइंट के स्तर पर आ गया था। माना जा रहा है कि अगले ऑफरिंग में एक बार फिर प्रीमियम पहले इश्यू की तरह ही 5 या 6 बेसिस प्वाइंट तक पहुंच सकता है।



महंगाई की मार से यूरोप बेहाल, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने फिर बढ़ाई ब्याज दर

वार्शिंगटन। यूरोप के देश बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। महंगाई को कब्ज करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रही हैं। अब एक बार फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपनी ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी करने का एलान किया है। जिसके बाद मुख्य पुनर्वित्त संचालन पर ब्याज दर बढ़कर 3.75 प्रतिशत, सीमांत ऋण सुविधा पर ब्याज दर बढ़कर 4 प्रतिशत और जमा रकम पर ब्याज दर 3.25 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ी हुई दर 10 मई 2023 से लागू होगी। महंगाई काबू करने के लिए वयों बढ़ाई जाती है ब्याज दर- महंगाई काबू करने के लिए

केंद्रीय बैंकों के पास जो सबसे अहम हथियार है, वो है ब्याज दरों



में बढ़ोतरी। दरअसल ब्याज दर में बढ़ोतरी करने से यह माना जाता है खर्च करने के लिए पैसा कम बचेगा। इससे लोग खरीददारी

कि जब नगरिकों के खर्च की किस्तें बढ़ जाएंगी तो उनके पास करेंगे और उत्पादों की विक्री कम होगी। जब उत्पादों की विक्री कम होगी तो उत्पादक अपने सामान की कीमत कम करेंगे। इस तरह ब्याज दर बढ़ाने का परोक्ष संबंध महंगाई काबू करना है।

यूरोप बीते कई महीनों से बढ़ती महंगाई से परेशान
यूरोन युद्ध के बाद से ही ऊर्जा की कीमतों में उछाल आया, जिसका सीधा असर यूरोप के देशों में महंगाई बढ़ने के तौर पर दिखाई दिया। हाल के महीनों में यूरोप में ऊर्जा कीमतों में कमी आई है लेकिन खाने-पीने की चीजों के दाम अभी भी बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई को काबू करना यूरोप की सरकारों के लिए

मुश्किल हो रहा है।

मॉडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूरोप में महंगाई दर में फरवरी के मुकाबले थोड़ी गिरावट आई है। फरवरी में यूरोप में महंगाई दर 8.5 प्रतिशत थी। मार्च में यह गिरकर 6.9 प्रतिशत पर आ गई थी लेकिन अप्रैल में फिर से इसमें बढ़ोतरी हुई है और अप्रैल में यह 7 प्रतिशत तक पहुंच गई। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कहा है कि 'भविष्य में ब्याज दरों की कीमतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि अर्थव्यवस्था और महंगाई की क्या स्थिति रहती है। स्थिति यह भी देख जाएगा कि ब्याज दर बढ़ाने का महंगाई पर असर पड़ रहा है या नहीं।'

यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को जमानत नहीं

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय धन रोधन मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राणा कपूर इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। न्यायमूर्ति पीडी म्हाडके की फैल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि राणा कपूर ने अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुयोग किया। उन रिश्तदारों, भ्राताचार और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं।

सराफा बाजार: सोना और चांदी की तेज हुई चमक

सोना 61,500 और चांदी 76 हजार के स्तर के पार

नई दिल्ली। भारतीय सराफा बाजार में आज एक बार फिर तेज का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। आज के कारोबार में सोना और चांदी दोनों चमकीली धातुओं ने तेजी का रुख दिखाया। इस तेजी के कारण सोना 61,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया। वहीं चांदी ने भी आज नजरदार छल्ला लगाते हुए 76 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर लिया।

आज के कारोबार में सोना ने प्रति 10 ग्राम 500 रुपये से अधिक की तेजी दिखाई। इसी तरह चांदी की कीमत में भी आज प्रति किलोग्राम 1 हजार रुपये से अधिक की मजबूती दर्ज की गई। बाजार में आई तेजी के कारण सोना आज के कारोबार में 61,565 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच कर कारोबार करने लगा। इसी तरह चांदी ने भी 76,359 रुपये प्रति किलोग्राम का स्तर हासिल कर लिया। इसके पहले पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार को सोना का अंतिम बंद भाव 61,044 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा था। आज के कारोबार में इस चमकीली धातु में प्रति 10 ग्राम 521 रुपये की तेजी दर्ज की गई, जिससे सोना उछलकर 61,565 रुपये प्रति 10

ग्राम (अस्थायी) के स्तर तक पहुंच गया। अलग-अलग त्रिणियों में सोने ने आज 521 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 305 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की तेजी दिखाई।



इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजे) के मुताबिक थ्रूट सराफा बाजार में आज कारोबारी सोना यानी 24 कैरेट (999) सोने की औसत कीमत 521 रुपये की उछल के साथ चढ़ कर 61,565 रुपये प्रति 10 ग्राम (अस्थायी) हो गई। इसी तरह 23 कैरेट (995) सोने की कीमत 519 रुपये की मजबूती के साथ 519 रुपये प्रति 10 ग्राम (अस्थायी) हो गई। जबकि जेवराती यानी 22 कैरेट (916) सोने की कीमत में आज 477 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज

की गई। इसके साथ ही 22 कैरेट सोना 56,393 रुपये प्रति 10 ग्राम (अस्थायी) के स्तर पर पहुंच गया। इसके अलावा 18 कैरेट (750) सोने की कीमत आज

धातु की कीमत पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार के आखिरी बंद भाव 75,282 रुपये प्रति किलोग्राम से उछल कर 76,359 रुपये प्रति किलोग्राम (अस्थायी) के स्तर पर आ गई। जानकारों का मानना है कि अमेरिका समेत वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार जारी उच्च पुष्कल के कारण वल्टेड गोल्ड मार्केट भी दबाव की स्थिति में काम कर रहा है। वल्टेड गोल्ड मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव का असर भारतीय बाजार पर भी स्वाभाविक रूप से पड़ता है। ऐसे में मौजूदा समय में भारतीय बाजार में भी लगातार अस्थिरता बने रहने की संभावना है। इसलिए फिलहाल छोटे और खुदरा निवेशकों को बाजार में बड़ा निवेश करने की जगह फिलहाल ही बड़ी गिरावट पर छोटे छोटे टुकड़ों में निवेश करने की नीति अपनानी चाहिए।

प्रति 10 ग्राम 390 रुपये चढ़ कर 46,173 रुपये प्रति 10 ग्राम (अस्थायी) के स्तर पर पहुंच गई। जबकि 14 कैरेट (585) सोना आज 305 रुपये महंगा होकर 36,015 रुपये प्रति 10 ग्राम (अस्थायी) के स्तर पर पहुंच गया। सोने की तरह ही चांदी की कीमत में भी आज तेजी का रुख नजर आया। आज के कारोबार में चांदी (999) की कीमत में 1,077 रुपये प्रति किलोग्राम की मजबूती दर्ज की गई। आज की वृद्धि के कारण इस चमकीली

भारत में अपनी मौजूदगी का विस्तार करे बोइंग: पीयूष गोयल

भारत में बोइंग की मौजूदगी में विस्तार देना चाहता हूँ। मेरी

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वह अमेरिकी विमान विनिर्माता कंपनी बोइंग की भारत में बढ़ी हुई मौजूदगी देखना चाहते हैं। वाणिज्य मंत्री ने भरोसा जताया कि अमेरिका की कुछ अन्य बड़ी कंपनियां भी भारतीय फर्मों के साथ इसी तरह मिलकर काम करेंगी। पीयूष गोयल ने यहां भारत-अमेरिका साझेदारी पर आयोजित अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया (एमचैम) कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि बोइंग को हाल ही में टाटा समूह से बड़ा ऑर्डर मिला है। गोयल ने कहा कि मेरी समझ में इसी तरह के कुछ और ऑर्डर भी आने वाले हैं। मैं

अधिक गतिविधियां करूँ। वाणिज्य मंत्री ने दोनों देशों के द्विपक्षीय



इच्छा है कि आप अपना स्थानीय अपूर्णत भूखंडा बढ़ाने के साथ यहां मरम्मत, रखरखाव एवं परिचालन (एमआरओ) की

500 अरब डॉलर तक ले जाने की कोशिश में हैं। गोयल ने भारतीय मूल के अजय बंगा के विश्व बैंक का अग्रता अध्यक्ष नियुक्त होने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह विश्व बैंक के कामकाज में विकासशील देशों का भी नजरिया आत्मसात करने में सफल रहे।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका की बहुराष्ट्रीय विमान निर्माता कंपनी बोइंग को टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया (एआई) से विमानों की आपूर्ति का एक बड़ा ठेका मिला है। एयर इंडिया ने यह फरवरी में कहा था कि वह बोइंग और एयरबस से कुल 470 विमानों की खरीद करेगा। इस सौदे का कुल मूल्य 80 अरब डॉलर होने का अनुमान है।

मदर डेयरी ने धारा ब्रांड तेल के दाम 15-20 रुपये प्रति लीटर घटाए

नई दिल्ली। मदर डेयरी ने धारा ब्रांड के खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में तत्काल प्रभाव से 15-20 रुपये घटाए हैं। इस कटौती के बाद धारा ब्रांड के कुकिंग ऑयल की कीमत 15 से 20 रुपये प्रति लीटर तत्काल प्रभाव से सस्ती हो गई है। धारा तेल नए एमआरपी के साथ अगले हफ्ते बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है। मदर डेयरी के प्रवक्ता

ने बताया कि धारा ब्रांड के खाद्य तेलों की कीमत में 15 से 20 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई। यह कटौती विभिन्न किस्मों के कटम वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल कीमतों में आई गिरावट के बीच उठाया है। धारा तेल नए एमआरपी के साथ अगले हफ्ते बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है। कंपनी के मुताबिक मूल्य कटौती के बाद धारा रिफाईंड सोयाबीन तेल (एक लीटर

का पैक) की कीमत 170 रुपये से घटकर 150 रुपये रह गई है। धारा रिफाईंड राइस ब्रान का दाम 190 से घटकर 170 रुपये लीटर पर आ गया है। धारा रिफाईंड सूरजमुखी तेल का भाव 175 रुपये से घटकर 160 रुपये प्रति लीटर रह गया है। इसी तरह धारा सूरजमुखी तेल का दाम 255 रुपये से घटकर 240 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा।



अमेरिका ने क्रेमलिन हमले में शामिल होने के रूसी आरोपों को नकारा

वाशिंगटन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के क्रेमलिन आवास पर हमले को लेकर रूस और अमेरिका आमने-सामने आ गए हैं। रूस ने अमेरिका पर इस हमले में शामिल होने का आरोप लगाया है, वहीं अमेरिका ने ऐसे आरोपों से साफ इनकार किया है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने क्रेमलिन पर कथित झूठे आरोपों का फैसला यूक्रेन की जगह अमेरिका में लिए जाने संबंधी रूसी दावे को सीधे खारिज किया। इसे उलटपट्टा दावा बताते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका का इससे कोई लेना-देना नहीं है। अमेरिका को यह नहीं पता कि वहां क्या हुआ। अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर 02 मई की रात क्रेमलिन पर आतंकवादी हमले के प्रयास की कड़ी निंदा की थी। इससे पहले रूस ने क्रेमलिन पर झूठे हमले और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या के कथित प्रयास में अमेरिका का हाथ होने का आरोप लगाया था। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि रूस अक्सर तरह जानता है कि इस तरह की कार्रवाइयों और इस तरह के आतंकवादी हमलों पर कौन (यूक्रेन) में नहीं, बल्कि वाशिंगटन (अमेरिका) में फैसले किए जाते हैं। रूस ने कई फुटेज जारी करते हुए पुतिन के क्रेमलिन आवास पर झूठे हमलों का दावा किया था। इन हमलों को यूक्रेन द्वारा रूस पर किया गया 14 आतंकवादी हमलों का करार दिया गया था। दो झूठे हमलों के बाद रूस ने क्राखोव में एक तेल डिपो और सीनेट पैलेस पर हमलों का दावा करने वाले वीडियो भी जारी किए थे।

जापान में फिर कांपी धरती, 6.2 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए; मामूली नुकसान की खबर

टोक्यो। जापान में होंशू के पश्चिमी तट के पास शुकुबाक को 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था। इस बात की जानकारी यूनैटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (स्लस) ने दी। भूकंप शुकुबाक को 8.7



किमी की गहराई पर स्थानीय समयानुसार दिन के 2.42 बजे आई। 137.305ए पूर्व था।

अधिकारियों के अनुसार, अभी तक सूनामी से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। जापान सागर के तट इराकवावा प्रायद्वीप में लंबे झटके अनुभव किए गए। इन झटकों ने ऊंची इमारतों को हिला कर रख दिया। वहीं सुनु शहर में तीसरी श्रेणी के झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से लोगों को मामूली नुकसान का सामना करना पड़ा है। फिलहाल अधिकारियों द्वारा विस्तृत तौर पर परिष्करण किया जा रहा है।

उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए। दलौले को सुनने के बाद कोर्ट ने नौ अलग-अलग मामलों में उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी। खान मुख्य न्यायाधीश अमेर फारूक की अध्यक्षता वाली इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ के समक्ष उपस्थित हुए।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की विधि अदालत सुनवाई से लगातार अनुपस्थित रहने पर अप्रसन्नता जताते हुए उनकी अंतरिम जमानत रद्द करने की बुधवार को चेतावनी दी थी। अदालत ने 18 अप्रैल को आठ मामलों में खान की जमानत तीन मई तक के लिए बढ़ा दी थी। दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सप्त मामलों में 10 दिन के लिए खान की अंतरिम जमानत बढ़ा दी। अदालत ने खान को स्थाई जमानत के लिए इस अवधि के दौरान संबंधित जिला अदालत में पेश होने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा, अदालत ने दो अन्य मामलों में खान की जमानत अवधि भी मई तक के लिए बढ़ा दी।

सिडनी के स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़; खालिस्तान समर्थकों ने दीवार तोड़ी, गेट पर लगाया झंडा

काठमांडू। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। पश्चिमी सिडनी के रोजहिल उपनगर के बापस स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शुकुबाक की सुबह बापस स्वामीनारायण मंदिर पर खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया और तोड़फोड़ की। साथ ही मंदिर के गेट पर खालिस्तान का झंडा लटका हुआ था। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 24 मई को छद्म शिखर सम्मेलन के लिए सिडनी जाने वाले हैं।

संसद के राज्य और संघीय सदस्यों, भारतीय उच्चयोग और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, परमपूज के लिए मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। जनवरी में मेलबर्न में बापस स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। 12 जनवरी को सुबह मेलबर्न के उत्तरी उपनगर मिल पार्क में बापस स्वामीनारायण मंदिर पर खालिस्तान समर्थकों ने तोड़फोड़ की थी। साथ ही मंदिर की दीवारों पर विरोधी नारे भी लिखे गए। मंदिर की दीवारों पर लिखे नारे में खालिस्तान समर्थकों ने आतंकवादी ज़रनेल सिंह भिंडराले को 'शहीद' बताया और उसकी प्रशंसा भी की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर की दीवारों पर विनाश और घृणा के स्लोक करने वाले नारे लिखे गए थे। वहीं, बापस ने हमले की निंदा की थी। बापस ने एक बयान में कहा था कि हम कब्रता और घृणा के इन कृत्यों से दुखी और स्तब्ध हैं। हम शांति और सद्भाव के लिए अपनी प्रार्थना करते हैं और जल्द ही घटना को लेकर विस्तार से जानकारी देंगे।



संसद सदस्य एंड्रयू चार्लटन को जैसे ही घटना की सूचना मिली, वे मंदिर पहुंचे। चार्लटन ने मंदिर के अधिकारियों के साथ दीवार को फिर से रंगने में मदद की। उन्होंने कहा कि मैं इस घटना से बहुत दुखी और हैरान हूँ। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने के लिए अपील की है। साथ ही स्थानीय पुलिस, नृह मायकों के विभाग, सिडनी के महावाणिज्यदूत के समर्थन की सराहना की।

जनवरी में भी हुआ था हमला गौरतलब है, इससे पहले भी कई बार ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों की निशाना बनाया जा चुका है। इस साल की शुरुआत में मेलबर्न में तीन और सिडनी में दो हिंदू मंदिरों में खालिस्तान समर्थकों द्वारा

सर्बिया में गोलीबारी, आठ की मौत, दस घायल

बेलग्रेड। सर्बियाई शहर म्लाडेनोवाक में एक व्यक्ति ने ताइपडोड फायरिंग कर आठ लोगों की हत्या कर दी। इस गोलीबारी में दस लोग घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह वाक्या सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित



सर्बियाई शहर म्लाडेनोवाक में एक भीड़भाड़ भरे स्थान पर हुआ। एक व्यक्ति ने चलती गाड़ी से स्वचालित हथियार से गोलियों की बौछार कर खुली खेल खेला। हत्याकर पुलिस के आने से पहले भाग गया। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है। इस कारण मृतक संख्या बढ़ने की आशंका है। पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। सर्बिया में इस तरह की गोलीबारी की लगातार दूसरी घटना है। इससे पहले बुधवार को एक 13 वर्षीय छात्र ने बेलग्रेड के व्लादिस्तान रिबनिक स्कूल गोलीबारी की थी। इस दौरान आठ छात्रों और एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई थी। आरोपित सातवीं कक्षा का छात्र था।

पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए आईएमएफ की नई शर्त, कहा- पहले बजट डिस्कस करो

वाशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान को कर्ज जारी करने से पहले एक और शर्त लगा दी है। उसने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वह पहले वित्त वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट पर उससे विचार-विमर्श करे। पाकिस्तानी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की शाहबाज शरीफ सरकार इसके लिए राजी हो गई है।

मुताबिक पाकिस्तान ने अभी तक उन शर्तों को पूरा नहीं किया है, जबकि पाकिस्तान सरकार का दावा है कि वह

एजेंडे पर विचार-विमर्श के लिए एक साझा बैठक हो, यह सवाल एक समाचार एजेंसी ने आईएमएफ के पाकिस्तान मिशन चीफ नाथन पोर्टर के सामने रखा। इस पर उन्होंने कहा कि समीक्षा की प्रक्रिया अपने क्रम के हिस्सा में हो चलेगी। उन्होंने कहा- 'आईएमएफ के सभी प्रोग्राम में अधिकारी एक लैटर ऑफ इंटेन्ट जारी करते हैं। इसका संबंध पिछली समीक्षा बैठक से होता है। इस पर मैं नोटी संबंधी उद्देश्यों का विवरण रहता है।'

लेकिन अखबार द न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि बजट और राजकोषीय घाटे पर चर्चा ही जो आखिरी रुकवट नहीं है, जिन्के इटने के बाद पाकिस्तान को आईएमएफ का त्रहा मिल जाएगा। आईएमएफ ने पिछले साल पाकिस्तान के लिए 6.5 बिलियन डॉलर का कर्ज मंजूर किया था। उसको पहली किस्त के तौर पर पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर मिलना है। लेकिन यह रकम महीनों से लटकी हुई है। इस बीच पाकिस्तान के कर्ज चुकाने में अधम (डिफॉल्टर) होने की आशंका गहरी चली जा रही है। कर्ज जारी करने से पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान की आर्थिक हालत और उसके वित्तीय कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा बैठकें शुरू की थीं। इन सिलसिले में आठ बैठकें पूरी हुईं। लेकिन नौवीं बैठक में आईएमएफ ने शर्तें रखीं, उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। आईएमएफ के

सारी शर्तें पूरी कर चुकी है। इसी विवाद के कारण आईएमएफ ने दसवीं समीक्षा बैठक को रद्द कर दिया था। क्या ऐसी कोई संधाना है, जिससे विवाद खड़ा हो गया। आईएमएफ के नौवीं और दसवीं समीक्षा बैठकों को

आईएमएफ की नई शर्तों के बारे में टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार किया है। इस हफ्ते गुरुवार को वित्त मंत्री इशराक डर ने फिर शपथ किया था कि नौवीं समीक्षा बैठक के तहत पाकिस्तान के सामने जो एजेंडा रखा गया था, शाहबाज शरीफ सरकार उस पर पूरा अमल कर चुकी है। पाकिस्तान के टीवी चैनल जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहबाज शरीफ सरकार 2023-24 का संघीय बजट नौ व इस जून को नेशनल असेंबली में पेश करेगी। चैनल ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार बजट तैयार करने के सिलसिले में उच्चस्तरीय बैठकों का आयोजन इस महीने के मध्य से शुरू करेगी। सरकार की कोशिश है कि इन बैठकों के पहले आईएमएफ के साथ कोई सहमति बन जाए, ताकि उससे मिलने वाली रकम को ध्यान में रख कर बजट में आवंटन तय किए जाएं।

तुर्किये में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान यूक्रेनी सांसद ने रूसी प्रतिनिधि को पीटा

अंकारा। रूस और यूक्रेन के बीच एक साल से ज्यादा समय से जारी युद्ध का अंतर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दिखने लगा है। तुर्किये में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान यूक्रेनी सांसद ने रूसी प्रतिनिधि को पीटा दिया। घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस समय तुर्किये की राजधानी अंकारा में पार्लियामेन्टरी असेंबली ऑफ द वेलक री इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (पैबसेक) सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में काला सागर क्षेत्र के देश इकट्ठा हुए हैं और द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संबंधों और आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक सहयोग प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक के दौरान यूक्रेन के सांसद

रूसी प्रतिनिधि ने यूक्रेनी सांसद के हाथ से झंडा छीन लिया। इस बात से यूक्रेनी सांसद इतना नाराज हुए कि उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए रूसी प्रतिनिधि पर हमला करते हुए धूम्र और थप्पड़ जड़ दिए। सुरक्षाकर्मियों ने दोनों को अलग किया। बताया गया है इससे पहले यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने रूसी प्रतिनिधि के संबोधन को बहिष्कार करते हुए नारेबाजी की। साथ ही यूक्रेन का झंडा भी लहराया। इसके बाद कुछ देर के लिए बैठक को स्थगित कर दिया गया।

नेपाल: यूएमएल सचिव रायमाझी की गिरफ्तारी के बाद ओली की प्रधानमंत्री प्रचंड को चेतावनी

काठमांडू। नेपाल में दो प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं के बीच टकराव बढ़ गया है। सीपीएम (एमके) के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहल के नेतृत्व वाली सरकार होते समय केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले सीपीएम (यूएमएल) के नेताओं और उनके करीबी लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद टकराव बढ़ गया है। फर्जी शरणार्थी मामले में यूएमएल सचिव एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री टोप बहादुर रायमाझी की गिरफ्तारी के मामले में केपी ओली ने आज प्रचंड से मुलाकात की। सिंह दरबार में हुई बैठक में रायमाझी की गिरफ्तारी को लेकर दोनों के बीच बातचीत की। ओली ने आज मीडिया के एक सवाल के जवाब में चेतावनी दी कि वे बेगुनाहों को फंसेने की कोशिशों को बंद रखें नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी भी मासूम को फंसेने की कोशिश बंद रखें नहीं करेंगे। पूर्व उप-प्रधानमंत्री टोप बहादुर रायमाझी, उनके पुत्र संदीप रायमाझी, पूर्व सांसद डॉ इंद्रजीत राय और अन्य को गिरफ्तार किया गया है।

‘पश्चिमी मित्रों की झूठ बोलने की आदत से हम वाकिफ हैं’; रूसी मंत्री ने यूएस और यूक्रेन पर बोला हमला

मास्को। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के गोवा में आए हुए हैं। यहाँ बैठक के बाद रूसी मंत्री ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने भारत और रूस के बीच रुपये में व्यापार के लिए हो रही वार्ता को लेकर कहा कि फिलहाल इस बारे में बात नहीं हो पाई है। वहीं उन्होंने यूक्रेन द्वारा झूठे हमला नहीं करने पर अमेरिका पर निशाना साधा। रुपया-रुबल व्यापार वार्ता चर्चा नहीं हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रुपया-रुबल व्यापार वार्ता पर कहा कि हमारी अभी इस बारे में बात नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि हमने भारतीय बैंक खातों में अरबों रुपये जमा किए लेकिन इस पैसे का उपयोग करने के लिए इसे किसी अन्य मुद्रा में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। रुपये के लिए यह एक समस्या है। इस पर अभी चर्चा हो रही है।

एक दिन पहले भी दी थी सफाई भारत और रूस के बीच रुपये में खबरें पश्चिमी समाचार एजेंसियों की ओर से फैलायी जा रही हैं। बता दें मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि भारत और रूस ने रुपये में द्विपक्षीय व्यापार से जुड़ी बातचीत को फिलहाल स्थगित कर दिया है। मामले की जानकारी रखने वालों दो भारतीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि दोनों देशों के बीच महीनों की बातचीत के बावजूद भारत मास्को को द्विपक्षीय व्यापार रुपये में करने के लिए सहमत करने में विफल रहा। हालांकि अब दावे को एक रूसी अधिकारी ने खारिज कर दिया है। भारत और रूस के बीच रुपये में द्विपक्षीय व्यापार होने पर आयातकों को मिलेगी राहत-मना जा रहा है कि यदि रुपये में व्यापार करने से जुड़ी बातचीत स्थगित की जाती है तो यह रूस से सरते तेल और कोयले के भारतीय आयातकों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। ये मुद्रा रूपांतरण की लागत कम करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार में

लंबे समय से एक स्थायी भूगतान तंत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक विदेशी समाचार एजेंसी ने भारत सरकार के अधिकारी ने नम न छपने की शर्त पर बताया था कि मास्को महसूस करता है कि रुपया का संकट 'वांछनीय नहीं' है, ऐसे में इसमें द्विपक्षीय व्यापार मुश्किल है। वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी महज दो प्रतिशत, इसलिए रुपये में व्यापार कठिन भारत के वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से इस मामले में अब तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। रुपया पूरी तरह परिवर्तनीय नहीं है। वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा लगभग 2% ही है इसलिए दूसरे देश रुपये में कारोबार करने से हिचकते हैं। भारत ने पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर आक्रमण के तुरंत बाद रूस के साथ रुपया निटान तंत्र की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन रुपये में कोई सौदा नहीं हुआ है। अब भी अधिकांश व्यापार डॉलर में होता है।

यौन कदाचार में डब्ल्यूएचओ ने वैज्ञानिक को किया बर्खास्त

जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का कहना है कि उसने उस वैज्ञानिक को यौन कदाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया है, जिसने दो साल पहले चीन का संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। यह प्रतिनिधिमंडल कोरोना वायरस महामारी की उत्पत्ति की जांच के लिए चीन गया था। स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि पीटर बेन एम्बारेक को पिछले साल बर्खास्त कर दिया गया था। प्रवक्ता मारिंथा फूले ने एक ईमेल में कहा, पीटर बेन एम्बारेक को उनके खिलाफ यौन कदाचार के निष्कर्षों और संबंधित अनुशासनात्मक प्रक्रिया के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि निष्कर्ष 2015 और 2017 से संबंधित आरोपों से जुड़े हैं, जो पहली बार 2018 में डब्ल्यूएचओ की जांच टीम की प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि अन्य आरोपों की पूरी तरह से जांच नहीं की जा सकती क्योंकि पीठिंट जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं होने चाहते थे। बेन एम्बारेक ने गुरुवार को उनके मोबाइल फोन पर किए गए कॉल या टेक्स्ट संदेश का तुरंत जवाब नहीं दिया।

पुतिन को अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराध अदालत का करना पड़ेगा सामना: जेलेन्स्की

द हेग। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेन्स्की ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन के युद्ध जीतने पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराध अदालत का सामना करना पड़ेगा। जेलेन्स्की ने अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत (आईसीसी) का दौर

किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को न्याय के बिना शांति नहीं शीर्षक वाले अपने संबोधन में कहा कि पुतिन इन अपराधिक कार्रवाइयों के लिए यही अंतरराष्ट्रीय कानून की राजधानी में सजा देने के हकदार हैं। जेलेन्स्की ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है यूक्रेन की जीत के बाद हम

ऐसा होता हुआ देखेंगे। हम जरूर जीतेंगे। आईसीसी ने यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जेलेन्स्की के दौर से एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन पर क्रेमलिन पर हमले का आरोप लगाया था। हालांकि,

जेलेन्स्की ने क्रेमलिन पर हमले के रूस के दावे का खंडन किया है। रूस ने दावा किया था कि उसने बुधवार तड़के क्रेमलिन पर यूक्रेन द्वारा किए गए झूठे हमले को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के दावे का खंडन करते हुए कहा कि हमने पुतिन या रूस पर हमला नहीं

पहलवानों की सारी मांगे मान ली गईं, पुलिस को जांच पूरी करने दे : खेलमंत्री टाकुर

लखनऊ। खेलमंत्री अनुराग टाकुर ने कहा कि दिल्ली में घरेने पर बैठे पहलवानों की सारी मांगे मान ली गईं हैं और उन्हें दिल्ली पुलिस को निष्पक्ष जांच पूरी करने देना चाहिये। टाकुर ने यहां पत्रकारों से कहा, ' मैं प्रदर्शन कर रहे सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूँ कि उनकी मांगे मान ली गईं हैं। अखिलत ने भी निर्देश दे दिये हैं और उन्हें निष्पक्ष जांच पूरी होने देना चाहिये। ' उन्होंने कहा, ' दिल्ली पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी। ' भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष वृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रहे समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर कई पहलवान जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से घरेने पर बैठे हैं।



कोटला को कोहली का इतजार, दिल्ली और आरसीबी के मैच में नजरें बहलबाजों पर

नई दिल्ली। पिछले मैच में चमत्कारिक जीत दर्ज करने वाली दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर आईपीएल के महात्वापूर्ण मुकाबले में कोई कोटाही नहीं बरतना चाहेंगी और इसके लिये बहलबाजों को बेतराफ प्रदर्शन करना होगा। आरसीबी की किर्कीत दिल्ली से बेतराफ है लेकिन फाफ डु प्लेसी की टीम कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगी। दूसरी ओर शीर्ष पर काबिज गुजरात टाइटंस को कम स्कोर वाले मैच में हारने वाली दिल्ली उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी।

तीन मसाह बाद लौटे तेज गेंदबाज खलील अहमद और अनुभवी इशान शर्मा दिल्ली की जीत के सूत्रधार रहे और उसे स्पर्ध में बनये रखा है। इस तरह की जीत के बाद किसी भी टीम का मनोबल ऊंचा होगा लेकिन दिल्ली के बहलबाजों को भी अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। पिछले मैच के बाद कप्तान डेविड वॉर्नर अपने बहलबाजों से काफी मायूस नजर आये। भारतीय बहलबाजों ने खास तौर पर निराश किया है हालांकि अमन हकीम खान और रिपल पटेल ने आखिर में संघर्ष किया लेकिन वह नाकाम था। फिल सॉल्ट के प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रही है जबकि वॉर्नर पिछले तीन मैचों में रन नहीं बना सके हैं। बहलबाजी में पूरी टीम एक ईकाई के तौर पर नकाम रही है। तीसरे नंबर पर प्रियम गर्ग नहीं चल सके हैं जबकि मनीष चांडे फिर परिचित अंदाज में खेल नहीं पा रहे। अक्षर पटेल ने गुजरात के खिलाफ छठे नंबर पर बहलबाजी की जिन्हें ऊपर उतारा जाना चाहिये। इस मैच में विराट कोहली के खेलने से स्ट्रेडियम खराबच भरा रहने की उम्मीद है। उन्होंने बृहस्पतिवार को नेट पर लंबा अभ्यास किया और उसके बाद अपने नाम से बने पवेलियन में चले गए। लखनऊ के खिलाफ मिली जीत के बाद गौतम गंभीर से हुई झड़प को भुलकर वह बेहतराना पारी खेलना चाहेंगे। कुछ समय पहले तक कमेंट्री कर रहे केदार जाधव को आरसीबी के मुख्य कोच संजय बांगड़ ने टूर्नामेंट के बीच में खेलने का मौका दिया है। उन्हें मध्यक्रम को मजबूती देने के लिये रखा गया है। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और जोरा हेगलवुड ने लखनऊ में अच्छा प्रदर्शन किया।

हमारे इन दो खिलाड़ियों ने खेल बदल दिया, जीत के बाद नीतिश राणा ने गेमचेंजर्स खिलाड़ियों का नाम बताया

हैदराबाद। आईपीएल के 47वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 रन से मात दी। इस मैच में पहले बहलबाजी करते हुए कोलकाता ने 172 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में हैदराबाद 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 166 रन ही बना पाई। इस मैच में हैदराबाद जीत तक पहुंच ही नहीं पाई और उसे आखिरी ओवर में जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी, लेकिन कोलकाता के गेंदबाज पराग चक्रवर्ती ने ओवर में 4 रन देते हुए 1 विकेट चटकाई। इस मैच की जीत का श्रेय कोलकाता के कप्तान नीतिश राणा ने गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा को दिया। नीतिश ने कहा, 'बीच में हमने कुछ बल्ले ओवर फेंके और शार्दूल टाकुर और वैभव अरोड़ा के साथ जाने जुआ खेला और वे दोनों सेट बहलबाजों को आउट करने में सफल रहे और इस तरह हमने इस खेल में वापसी की। हमें उन्हें आउट करना था क्योंकि अगर वे अंत तक बहलबाजी करते तो निश्चित रूप से खेल हमारी पहुंच से बाहर हो जाता। मुझे संतुष्ट था कि वृद्धे स्पिनर/तेज गेंदबाज के साथ जाना है और काम करने के लिए अपने स्पिनर का समर्थन करना है। मैं हमेशा देखा हूँ कि खेल में सबसे अच्छे स्पिनर कौन है और इसी तरह मैं तो सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने बहलबाजों के गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल के अहम मुकाबले में बृहस्पतिवार को पांच रन से जीत तोड़फें में दे दी जिससे केकेआर की प्लेआफ की उम्मीदें बरकरार हैं।

संजु सैमसन एक कप्तान के रूप में अब परिपक्व हो गए हैं : रवि शास्त्री

नई दिल्ली। राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2023 के अपने अगले मुकाबले में घर में टेवल-टॉपर्स गुजरात टाइटंस का सामना करेगी। अपने पिछले मैचों में हर का सामना करने के बाद, दोनों टीमों जीत की राह पर लौटने के लिए उत्सुक होंगी।

आईपीएल 2022 की फाइनलिस्ट इन दोनों टीमों ने इस सीजन तक अपनी फॉर्म को बरकरार रखा है। राजस्थान-जिसका नेतृत्व संजु सैमसन कर रहे हैं, और हरदिक पांडेय की गुजरात प्लेआफ की टीम में सबसे आगे है। भारत के पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने टाटा आईपीएल 2023 में टीम के संतुलन और एक इकाई के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शन करने के तरीके के कारण गुजरात टाइटंस को खिताब का प्रबल दावेदार बताया है। स्टार स्पॉट्स के जो क्रिकेटर लाइव में शास्त्री ने कहा, मौजूदा फॉर्म और टीम स्ट्रैटजी को देखते



सात-आठ खिलाड़ी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस गुजरात टीम के खिलाड़ी एक दूसरे के फूक है। शास्त्री ने राजस्थान के कप्तान संजु सैमसन की अगुवाई करने के तरीके की भी प्रशंसा की है और जिस तरह से विकेटकीपर-बहलबाज आईपीएल 2023 में

आर अश्विन, वृजवेंद्र चहल और एडम जम्पा की स्पिन तिकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, उससे वह काफी

प्रभावित है। शास्त्री ने कहा, संजु सैमसन एक कप्तान के रूप में परिपक्व हो गए हैं। वह अपने स्पिनरों का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। केवल एक अच्छे कप्तान ही तीन स्पिनरों के साथ खेल सकता है। वह उनका स्मार्ट तरीके से उपयोग कर रहे हैं।

पेप गार्डियोला के नेतृत्व में मैनेचेस्टर सिटी ने पूरे किये 1000 गोल

नई दिल्ली। मैनेचेस्टर, 5 मई (हि.स.)। मैनेचेस्टर सिटी ने पेप गार्डियोला के मार्गदर्शन में 1000 गोल पूरे कर लिए हैं। मैनेचेस्टर सिटी ने 2016 की गर्मियों में गार्डियोला को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया था।

गोल की औसत से यह उपलब्धि हासिल की, जो पिछले रिकॉर्ड धरक आर्सेन वेगर की तुलना में

गोल किये हैं, वहीं, दूसरे नंबर पर 120 गोलों के साथ रहीम स्टर्लिंग हैं। तीसरे नंबर पर गैब्रियल



150 मैच कम है। आधुनिकजनक रूप से 40 अलग-अलग शहर के खिलाड़ियों ने भी 71 अलग-अलग विरोधियों के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल करने में योगदान दिया है। गार्डियोला के मार्गदर्शन में क्लब के रिकॉर्ड गोलस्कोरर, सर्जियो एगुएरो हैं, जिन्होंने 124

जोसस (95), चौथे नंबर पर केविन डी ब्रुन (79) और पांचवें नंबर पर रिबाद महेरज (78) हैं।(2016 में गार्डियोला के अगमन के बाद से अब तक सिटी ने चार प्रीमियर लीग खिताब, एक एएफ कप और चार काराबाओ कप जीते हैं।

आईपीएल : आंद्रे रसेल ने टी 20 प्रारूप में पूरे किये 600 छक्के

नई दिल्ली। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के हरफनमौला खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने टी 20 प्रारूप में 600 छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल की। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में यह उपलब्धि हासिल की। विस्फोटक बहलबाज ने हैदराबाद के खिलाफ मैच में दो छक्के लगाए।



उन्होंने मैच में 15 गेंदों में कुल 24 रन बनाए। रसेल, क्रिस गेल (1,056 छक्के) और कीरियन पोलार्ड (812 छक्के) के बाद वेस्ट इंडीज टी-20 क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी हैं। सूची में रसेल ने पीछे न्यूजीलैंड के बहलबाज ब्रेंडन मैकुलम हैं और कॉलिन मुनरो हैं, मैकुलम ने सबसे छेठे प्रारूप में 485 छक्के लगाए, वहीं मुनरो ने 480 छक्के लगाए हैं।

मयंक अग्रवाल ने आईपीएल में पूरे किये 2500 रन

नई दिल्ली। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के सलामी बहलबाज मयंक अग्रवाल ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में 2500 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ मैच में हासिल की।



मयंक 11 गेंदों में 18 रन बनाकर इस मुकाम तक पहुंचे। उन्हें तीसरे ओवर में हार्पित राणा ने आउट किया। मयंक ने 122 मैचों में 22.45 की औसत और 132.53 की स्ट्राइक रेट से 2514 रन बनाए हैं। उन्होंने एक शतक और 12 अर्धशतक बनाए हैं। मौजूदा आईपीएल में, उन्होंने नौ मैचों में 122.78 की औसत और 114.02 की स्ट्राइक रेट से 187 रन बनाए हैं। उन्होंने इस सीजन में अब तक कोई अर्धशतक नहीं बनाया है। मयंक ने आईपीएल 2011 में रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर

(आरसीबी) के साथ अपने करियर की शुरुआत की, वह 2013 तक फेंचाइजी के लिए खेलते रहे। उन्होंने 29 मैचों में 18.83 की औसत से टीम के लिए एक अर्धशतक के साथ 433 रन बनाए।

उसके बाद, उन्होंने 2014-16 सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व किया। दिल्ली के लिए 21 मैचों में उन्होंने 17.75 की औसत से 2 अर्धशतकों के साथ 355 रन बनाए। उन्होंने 2017 में अब समाप्त हो चुकी राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स का प्रतिनिधित्व किया और केवल तीन मैचों में 20 रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ 2018-22 से पंजाब किंग्स के साथ उनके कार्यकाल के दौरान आया। पंजाब के लिए 60 मैचों में, उन्होंने 26.54 की औसत से एक शतक और नौ अर्धशतक के साथ 1,513 रन बनाए।

नापोली ने 33 वर्षों बाद जीता अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब

नेपल्स। नापोली ने गुरुवार रात उखीनीज से 1-1 से ड्र खेलकर 33 वर्षों में अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता। नापोली ने इससे पहले इटली में 1990 में आखिरी बार यह खिताब जीता था। नापोली का कुल मिलाकर यह तीसरा सीरी खिताब है। क्लब ने पहली बार यह खिताब माराडोना के ही नेतृत्व में 1987 में जीता था। नापोली को पांच गेम शेष रहते 16 अंकों की अजेय बहाल लेने के लिए केवल ड्र की आवश्यकता थी। मैच की शुरुआत में सैंडी लोवरिक ने 13वें मिनट में गोल कर उखीनीज को 1-0 की बहाल दिला दी। सेरी ए के शीर्ष स्कोरर, जिब्रल्टर ओसिमैन ने 52वें मिनट में नापोली के लिए बराबरी का गोल किया और यही स्कोर निर्णायक साबित हुआ। जैसी ही फाइनल सीटी बजी उखीनी में स्ट्रेडियम के अंदर और बाह्र उनके प्रशंसक खुशी से जश्न मनाने लगे। वहीं, नेपल्स में लोग सड़कों पर उतर कर आतिशबाजी करने लगे। यह खिताब इटली के शीर्ष डिवीजन में नापोली का तीसरा और अर्धशतक के दिग्गज खिलाड़ी डिगो माराडोना के 1987 और 1990 में खिताबी जीत हासिल करने के बाद यह



उनका पहला खिताब है। नवंबर 2020 में उनकी मृत्यु के बाद माराडोना के सम्मान में नापोली के घरेलू स्ट्रेडियम का नाम बदल कर स्ट्रेडियो डिगो अरमांडो माराडोना रखा गया। नापोली के कोच लुसियानो स्पैलेटी ने कहा कि माराडोना का प्रभाव इस सफलता में महसूस किया गया।

तेपे सिगमन सुपर ग्रांड मास्टर शतरंज -गुकेश और अर्जुन की शानदार जीत से शुरुआत

स्टाकहोम स्वीडन। तेपे सिगमन सुपर ग्रांड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट पहली बार दो भारतीय खिलाड़ी एक साथ खेल रहे हैं और पहला दिन पहला राउंड पूरी तरह से भारत के नाम रहा। पहले दिन भारत के दोनों खिलाड़ियों डी गुकेश और अर्जुन एरिगमो ने शानदार जीत के साथ प्रतिस्पर्धा का आरंभ किया।

फरिस्ट ऑर्डन के खिलाफ एक लंबे बले मुकाबले में काले मोहरो से 60 चालों में बाजी जीत ली।

गंडेलीयूस ने ड्र पर रोक लिया। प्रतिस्पर्धा में 8 खिलाड़ी राउंड 60 चालों में बाजी जीत ली। शक्ति अंधार पर आपस में कुल 7



अन्य मुकाबलों में रूस के पीटर स्वीडलर को यूएसए के अभिमान्यु ने तो जर्मनी के विन्सेंट केमर को मेजबान स्वीडन के निल्स

वलासिकल मुकाबले खेलेंगे, अब दूसरे राउंड में गुकेश का सामना विन्सेंट से होगा तो अर्जुन के सामने निल्स बाजी खेलेंगे।

रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने हैदराबाद को 5 रन से हराया

हैदराबाद। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम (उपल) में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 47वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को 5 रनों से हरा दिया है। आखिरी ओवर में हैदराबाद को जीत के लिए 9 रन की जरूरत थी लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी के फेर में बहलबाजों को ऐसा नचाया कि वो सिर्फ तीन रन ही बना सके। वहीं इस हार के साथ हैदराबाद लगातार प्लेआफ की रस से बाहर हो गई है।



जीत के लिए 172 रनों का पीछा करते हुए हैदराबाद की शुरुआत काफी खराब रही। दोनों ओपनर मयंक अग्रवाल (18) और अभिषेक शर्मा (9) एक बार फिर टीम को ठोस शुरुआत देने में विफल रहे। फिर बदलाव के तौर पर आए राहुल त्रिपाठी

(20) भी अहम योगदान नहीं दे सके। वहीं आतिशी बहलबाज हेरी क्वक (शुन्य) स्पिनरों के सामने नरकम साबित हुए। 54 रन पर

बलासेन के आउट होते ही टीम की नट्या फिर से भंवर में फंस गई। इन दोनों के अलावा, अब्दुल समद ने 21 रन बनाकर टीम को

जीताने की कोशिश की लेकिन यह नाकाम की रही। आखिर के फलों में कोलकाता से स्पीसर्स ने इतना दबाव बना दिया कि अंतिम छह गेंदों में जल्दी 9 रन भी बहलबाज नहीं बना सके। वरुण चक्रवर्ती ने आखिरी ओवर में सिर्फ तीन रन

मुख्य सचिव ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियों का किया स्थलीय निरीक्षण

25 मई से उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन

यूनिवर्सिटी का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य

ली जाए। आयोजन के दौरान कार्यक्रम स्थल पर सफाई

स्पोर्ट्स कालेज, प्रबन्ध निदेशक, उग्र राजकीय निर्माण निगम लि0 सहीत खेल विभाग, निर्माण निगम क संघचित विभागों के अन्य अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री योगी शुकुवार को गेम्स की मशाल रिले को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना



सचिव ने समस्त कर्मियों को 17 मई तक प्रत्येक दश में पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ियों के आने-जाने, खाने-पीने एवं रुकने की समुचित व्यवस्था समय से सुनिश्चित कर

एथलेटिक्स ग्राउंड ट्रैक के समस्त कर्मों को 15 मई, 2023 तक पूर्ण करा लिया जावे। उन्होंने फुटबाल ग्राउंड की घास की कटिंग एवं उसके आसपास के एरिया की साफ-सफाई करने के लिए भी कहा। निरीक्षण के समय अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल, निदेशक खेल, प्रधानाचार्य गुरु गोविन्द सिंह

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव तुर्गा शंकर मिश्र ने 25 मई से प्रारम्भ होने वाली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज स्थित फुटबाल ग्राउंड व एथलेटिक्स ग्राउंड तथा मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने आज इंटीग्रेल यूनिवर्सिटी में प्रतियोगी छात्रों को रुकने के लिए चर्चान्त छात्रावास तथा बी.बी.डी.

मुंबई को हराकर जीत की राह पर लौटने उतरेगी चेन्नई सुपर किंग्स

चेन्नई। पिछले तीन मैचों में महज एक अंक बना सकी चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में शनिवार को मुंबई इंडियंस को हराकर जीत की राह पर लौटना चाहेंगी हालांकि मुंबई के हौमले बुलंद है और यह उसका पसंदीदा

महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई टीम का लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ पिछला मैच बारिश की भेंट हो गया जबकि उससे पहले दो मैचों में उसे पराजय का सामना करना पड़ा। पंजाब किंग्स के खिलाफ 30 अप्रैल को आखिरी गेंद पर पराजय का

सामना करने वाली चेन्नई को उम्मीद है कि इस बार वह अपने दर्शकों को निराश नहीं करेगी। डेवोन कॉवे (414 रन) और रनुराज गावकवाड़ (354 रन) ने टीम को अच्छी शुरुआत दी है लेकिन मध्यक्रम उसका फायदा नहीं डाय सका। अनुभवी

अजिंक्य रहाणे और युवा शिवम दुबे ने रन बनाये हैं लेकिन अंबाती रायडू और मोहन अली का ब्राम कमरेश खामोश ही रहा है। बहलबाजी क्रम में काफी नीचे उतर रहे धोनी ने कुछ अच्छे शॉट खेलें हैं लेकिन उनके प्रशंसक इस बात पर हैतन हैं।

मुख्यमंत्री योगी और अनुराग टाकुर इस अवसर पर मशाल रिले को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अपने 20 दिनों तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चार प्रदेशों घूमेंगी और इस रैली का हर जिले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वागत किया जाएगा।

कर्नाटक: संघ परिवार बना रहा है पैठ

दलित-ओबीसी को हिंदुत्व और विरासत से जोड़ने की कोशिश, सोनिया की रैली 6 मई को

टीएम एक्शन इंडिया/बंगलुरु कर्नाटक में चाहे विधान सभा का चुनाव हो या लोकसभा का, मठों का सियासी दबदबा वर्षों से जारी है। लेकिन पहली बार कर्नाटक के भू-सियासी मानचित्र पर दलित और ओबीसी समुदाय को अपनी ओर लाने के लिए हिंदुत्व एजेंडा लाया गया है। संघ और इससे जुड़े संगठनों ने अंग्रेजी अक्षर वी आकार में नेलमंगला (बंगलुरु) से लेकर मंगलुरु और मंगलुरु से गोकर्ण-कारवार के सियासी मानचित्र पर समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है जिन पर अभी तक मठों और जातियों का दबदबा रहा है। लेकिन हिंदुओं के बीच बड़ा वर्ग है जो मठों के प्रभाव से दूर है। ऐसे तबके को विरासत और हिंदुत्व के नाम पर साथ लाने के प्रयास रंग ला रहे हैं।

भाजपा के लिए वोट बैंक नहीं: पूरे कर्नाटक में दलित और ओबीसी 40% से अधिक हैं।



वोक्कालिया और लिंगायत 36% हैं। राज्य में दलित-ओबीसी मुख्य रूप से कांग्रेस के समर्थक रहे हैं जबकि अपने प्रभाव वाले इलाके हासन, मांड्या जैसे क्षेत्र में इनका समर्थन जेडीएस को भी रहता है। भाजपा को इस समुदाय का वोट ज्यादा नहीं मिलता या इन्हें पार्टी का परंपरागत वोट बैंक नहीं गिना जाता है।

हर शाम छोटी, हर महीने बड़ी बैठक: इन समुदायों को अपना सरनेम रखने से भी परंपरागत रूप से रोका गया लेकिन संघ इन इलाकों में काम कर ऐसे लोगों को अपनी पहचान के साथ सामने आने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और जरूरी सहयोग भी करता है। हर

गांव में ऐसे दलितों और ओबीसी की एक छोटी बैठक हर शाम होती है और महीने में एक बार बड़ी बैठक होती है। इन बैठकों में हिंदुत्व, देश और विरासत का जिक्र होता है और ओबीसी-दलित समुदाय के इतिहास में प्रसिद्ध रहे हस्तियों की कहानी और वीडियो साझा होती है।

हिंदुत्व एजेंडा

कर्नाटक के भू-सियासी मानचित्र पर दलित और ओबीसी समुदाय को अपनी ओर लाने के लिए हिंदुत्व एजेंडा लाया गया है

सोनिया गांधी की रैली आज: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी शनिवार को हुबली में चुनावी रैली करेंगी। यह उनकी पहली रैली होगी। वहीं गुरुवार को कनकगिरी में प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली की।

तेलुगु भाषी क्षेत्रों में रेड्डी भाजपा को पहुंचा सकते हैं नुकसान: खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी ने कल्याण राज्य प्रगति पक्ष नाम से पार्टी बनाकर 41 उम्मीदवार कल्याण-कर्नाटक क्षेत्र में उतारे हैं जिसे पहले हैदराबाद-कर्नाटक नाम से बुलाया जाता रहा है। आंध्र प्रदेश से लगे इन इलाकों में तेलुगु भाषियों की संख्या अधिक है। यहां वे भाजपा के वोट काट सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर: आर्टिकल-370 हटा तो 14 लाख लोग बेघर होने से बचे

जम्मू-कश्मीर में जनजाति समाज को वन अधिकार कानून लागू होने से हक मिला



टीएम एक्शन इंडिया/श्रीनगर जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद प्रदेश के 14 लाख लोग बेघर होने से बच गए। वे लोग गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और दर्द शीन जनजातियों के लोग हैं, जो अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर ही निर्भर हैं। वे लोग जंगलों में जानवर चराते हैं, जंगल की जमीन पर ही घर बनाते हैं, दूसरी जरूरतों के लिए भी जंगल पर ही निर्भर रहे हैं। राज्य सरकार इन्हें जंगलों से निकालने की कोशिश लंबे समय से कर रही है। इन्हें कई बार नोटिस भी थमाया गया। दरअसल राज्य के कानून के तहत जंगल में रहना गैरकानूनी था। इसे अतिक्रमण माना जा रहा था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी वन अधिकार कानून 2006 लागू हो गया है। इसके बाद सदियों से जंगल पर निर्भर इन जनजातियों का जंगल पर अधिकार हो गया। वे हरे पेड़ों की लकड़ी छोड़कर जंगल की हर

चीज का अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जंगल में अपने पशुओं को भी चरा सकते हैं। घर बचा तो खुश हैं जनजातियां: स्थानीय अब्दुल मजीद बजरान कहते हैं- अगर यह कानून लागू नहीं होता तो शायद हम अपने घरों से ही निकाल दिए गए होते। इस कानून के बाद हमें जंगल से निकालने की कार्रवाई पर रोक लगी है। इससे पहले वन विभाग ने हमें हटने के लिए कई नोटिस भेजे। ट्राइबल रिसर्च फाउंडेशन के डॉक्टर जावेद राही कहते हैं कि सरकार का यह

सराहनीय कदम है। जनजातियों के लोग चाहते हैं कि इसे धरातल पर सच किया जाए। मुलाना के शब्दों अहमद कहते हैं- अब तक सरकार ने हमसे सिर्फ फॉर्म भरने को कहा है। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। जम्मू-कश्मीर में 20,230 वर्ग किमी में जंगल फैला है। बकरवाल घुमंतू लोग हैं। वे सदियों से गर्मियों में अपने जानवरों के साथ कश्मीर के पहाड़ों में जाते हैं और सर्दियां जम्मू में बिताते हैं। गुज्जर पूरे कश्मीर और जम्मू के रजौरी और पूंछ जिले में फैले हुए हैं।

जीएसटी घोटाला: 8वीं पास ने 1500 डमी कंपनियां बनाईं

टीएम एक्शन इंडिया/सूरत गुजरात के सूरत में 1500 डमी कंपनियां बनाकर 2700 करोड़ की जीएसटी घोटाला करने वाला मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। आरोपी ने केमिकल और कबाड़ के व्यापार के नाम पर फर्जी बिलिंग की। इस मास्टरमाइंड ने अकेले 901 करोड़ का जीएसटी घोटाला किया। इसके पूरे रैकेट में 35 लोग शामिल हैं। इनमें से 19 को पकड़ा जा चुका है, जबकि 16 अभी भी फरार हैं। जीएसटी घोटाले के मास्टरमाइंड सुफियान कापडिया को सूरत पुलिस की इकोनॉमिक सेल ने गिरफ्तार किया। सुफियान ने ही जीएसटी चोरी की शुरुआत की थी। उसके बाद उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर डमी कंपनियां बनाईं और फर्जी बिलिंग कर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। जीएसटी घोटाले में करोड़ों रुपए लेकर उसे किस इस्तेमाल किया है, यह अभी नहीं पता चल सका है। पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार कई लोगों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एबी एंटरप्राइज, बारिया एंटरप्राइज, गणेश एंटरप्राइज, जय अंबे एंटरप्राइज जैसी कई डमी कंपनी खोली गई हैं। जीएसटी लाइसेंस लेकर उस फर्म के नाम बैंक अकाउंट खुलवाया गया है। बैंक अकाउंट का उपयोग गैर कानूनी तरीके से



फर्जी दस्तावेज

आरोपी ने केमिकल-कबाड़ के व्यापार के नाम पर फर्जी बिलिंग की। अकेले 901 करोड़ का जीएसटी घोटाला किया

व्यापार कर इनपुट टैक्स क्रेडिट ली गई। 15 राज्यों में भी 250 से अधिक फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड: एसीपी वीरजीत सिंह ने बताया कि आरोपियों ने 250 से अधिक कंपनियां गुजरात से बाहर 15 राज्यों में अलग-अलग रजिस्टर्ड कराईं। सबसे पहले इस रैकेट में शामिल उस्मान को भावनगर से गिरफ्तार किया गया था। वह भावनगर और सूरत से जीएसटी चोरी गैंग ऑपरेट करता था। इस घोटाले का मुख्य सूत्रधार सुफियान कापडिया फरार चल रहा था, जिसे इकोनॉमिक सेल ने सूरत से गिरफ्तार कर लिया है।

'जातीय आधारित गणना का काम रोकना आश्चर्यजनक'

टीएम एक्शन इंडिया/पटना वित्त मंत्री एवं जद (यू) के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के जातीय आधारित गणना का काम रोक देना आश्चर्यजनक है। इस आदेश के अनुसार राज्य सरकार अपनी आबादी के विभिन्न समूहों की गणना एवं उनके आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण नहीं करा सकती है। विजय चौधरी ने कहा कि प्रश्न यह है कि कल्याणकारी राज्य में विभिन्न गरीब एवं वंचित परिवारों की पहचान कर उन्हें विशेष लाभ प्रदान करने के लिए योजनाएं फिर कैसे बन पायेंगी?



न्यायालय ने दोनों तरह की बातें की हैं, जिसमें कहा गया है कि विधानमंडल में जब सर्वसम्मत् प्रस्ताव पारित हुआ, तो फिर इसके लिए कानून क्यों नहीं बनाया गया है? इसके विपरीत इसी आदेश में यह भी कहा गया है कि इस पर

उठाया सवाल

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर भाजपा नेताओं की अकबकाहट स्पष्ट प्रतीत हो रही

अगर राज्य सरकार संकलित करती है, तो फिर किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का हनन कैसे होगा जबकि आज सूचना के अधिकार के जमाने में सभी लोगों को सूचनाएं पाने का अधिकार प्राप्त है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर भाजपा नेताओं की अकबकाहट स्पष्ट प्रतीत हो रही है।

समलैंगिक विवाह रोकने के लिए राष्ट्रपति को लिखा पत्र

टीएम एक्शन इंडिया/सहरसा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह को मान्यता दिये जाने पर भारतीय समाज के लोग अर्चिभित है। इस कानून को निरस्त किये जाने की मांग विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा किया जा रहा है इस कड़ी में ब्राह्मण महासभा ने भी राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखकर इस पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिन पूर्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक एवं विपरीत लिंगी आदि व्यक्तियों

के विवाह के अधिकार को विधि मान्यता देने का निर्णय लेने की तत्परता दिखाई है। जिससे हमारी संस्कृति और सभ्यता को ठेस पहुंचेगी है। ब्राह्मण महासभा सहरसा के अध्यक्ष ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया को चिट्ठी लिख कर अनुरोध किया गया है कि इसमें महामहिम महोदया संज्ञान ले ताकि अपनी संस्कृति को बचाया जा सके। ब्राह्मण महासभा सहरसा के कोषाध्यक्ष रौशन मिश्रा ने कहा कि भारत में विवाह का एक सभ्यतागत पारंपरिक महत्त्व है।

जातीय जनगणना: हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की

टीएम एक्शन इंडिया/पटना बिहार में जातीय जनगणना के मामले में हाई कोर्ट से आये आदेश के बाद अब राज्य सरकार ने पटना हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि इस पर सुनवाई जल्द की जाए ताकि इस मामले में फैसला जल्द आ सके। पटना हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने राज्य में जातियों की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीन जुलाई के पूर्व ही कोर्ट की ओर से सुनवाई करने के लिए याचिका दायर की है। राज्य सरकार ने याचिका में कहा है कि इन जनहित याचिकाओं में उठाए

गए मुद्दों पर कोर्ट ने अपना निर्णय अंतिम रूप से दे दिया है। इस कारण इन याचिकाओं की सुनवाई तीन जुलाई के पूर्व ही करके इनका निष्पादन कर दिया जाए ताकि इस मामले में फैसला जल्द आ सके। उल्लेखनीय है कि वीते गुरुवार को कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए जातीय जनगणना पर रोक लगा दी थी। मुख्य न्यायाधीश केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य सरकार इस दौरान एकत्रित आंकड़ों को शेयर तथा उपयोग फिलहाल नहीं करेगी।

चाचा ने मतीजे को उतारा मौत के घाट

सुलतानपुर। बल्दीराय थाना क्षेत्र के गौराबारामऊ गांव में कलवृगी चाचा ने भतीजे की गला घोटकर हत्या कर दी। बच्चे की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आरोपी चाचा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बल्दीराय थाना क्षेत्र के गौराबारामऊ गांव निवासी बब्बन उर्फ गोलाई पासो के 12 वर्षीय पुत्र शिवा की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शिवा कक्षा 6 में पढ़ता था। उसकी मौत की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि बच्चे के मुंह और गले पर काला पड़ने का निशान है।

पटना एयरपोर्ट: एयरवेज के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

टीएम एक्शन इंडिया/पटना पटना एयरपोर्ट पर शुक्रवार को बांग्लादेश के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यह फ्लाइट बांग्लादेश के ढाका से नेपाल के काठमांडू जा रही थी। फ्लाइट में करीब 77 यात्री थे। तकनीकी खराबी होने की वजह से इसे पटना एयरपोर्ट पर उतारा गया। एयरपोर्ट के तकनीकी टीम ने फ्लाइट की जांच की। करीब चार घंटे बाद फ्लाइट फिर काठमांडू के लिए रवाना हुई। पहले इन्हें अब एयर इंडिया की फ्लाइट से भेजने की तैयारी थी, लेकिन फ्लाइट की गड़बड़ी को



सुधार लिया गया। डीजीसीए ने बताया कि ढाका से काठमांडू जाने वाली विमान बांग्लादेश की फ्लाइट 371 को तकनीकी खराबी के चलते बिहार के पटना डायवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट

में सवार सभी 77 यात्री सुरक्षित हैं। इससे पहले पिछले साल 19 जून को पटना में भी स्पाइसजेट के विमान की लेफ्ट विंग में टेकऑफ के वक्त चिंगारी निकलने लगी थी।

सुरक्षा का सवाल सांसद के सुरक्षाकर्मियों ने खदेड़ कर तीनों बदमाशों को पकड़ लिया और स्थानीय थाने को सुपुर्द कर दिया

बिहार में बेखौफ बदमाश: सांसद पर तानी पिस्टल

टीएम एक्शन इंडिया/पटना बिहार में सुरासन के राज में अब सांसद भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला औरंगाबाद से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद सुशील सिंह से जुड़ा है, जिनके ऊपर शुक्रवार को तीन बदमाशों ने पिस्टल तान दी। जिले के बारुण थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई। सांसद के सुरक्षाकर्मियों ने खदेड़ कर तीनों बदमाशों को पकड़ लिया और स्थानीय थाने को सुपुर्द कर दिया। भाजपा सांसद काफिले के साथ कहीं जा रहे थे। इसी दौरान बदमाश महिला का चैन छीन कर भाग रहा था।



बदमाशों को लगा की भाजपा सांसद पीछा करने लगे हैं। इसके बाद बदमाशों ने रुक कर उनपर पिस्टल तान दी। साथ ही कहा कि अगर पीछा करोगे तो गोली मार

देंगे। तभी सांसद का सुरक्षा गार्ड गाड़ी खोलकर उतरने लगा। इसे देख बदमाश भागने लगे लेकिन सुरक्षा गार्डों ने एनएच-19 पर खदेड़ कर उन्हीं धर दबोचा।

पकड़े गए आरोपियों के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 7 कारतूस बरामद हुआ है। सभी को सांसद के सुरक्षा गार्डों ने स्थानीय थाना को सौंप दिया। स्थानीय सांसद सुशील सिंह ने हिन्दुस्थान समाचार से बातचीत में कहा कि जिसकी उम्मीद नहीं थी आज वैसा बिहार हमें दिख रहा है। कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से अपराधियों ने हिम्मत की है। इसे जंगणराज नहीं तो और क्या कहेंगे। अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी को भी टारगेट कर ले लेकिन गुर्गी बहरी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाएगी।



MARUTI
nandan printers

8 COLOUR
WEB OFFSET
MACHINE

Capacity : 36000 Copies per Hour
16 Broad Sheet Pages in One Go

THE PRINTING HUB COMPLETE CTP UNIT BASYS PRINT

Corporate Office : A-15, G. T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi-110033
Phone : +91-9999889104, +91-9250706656, +91-11-47502546